



# જવાની કેસે ગુઝારેં ?

Jawani Kaise Guzaren ? (Gujarati)

બયાન : 2

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઇલ્મિયા (દા'વતે ઇસ્લામી)

18 રબીઉલ અવ્વલ 1412 હિ. મુતાબિક 26 સિતમ્બર 1991 ઈ. બરોઝ જુમા'રાત હફતાવાર સુન્નતોં ભરે ઇજતિમાઅ મેં શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત બાનિયે દા'વતે ઇસ્લામી, હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી رحمۃ اللہ علیہ ને દા'વતે ઇસ્લામી કી અવ્વલીન મ-દની મર્કઝ જામેઅ મસ્જિદ ગુલઝારે હબીબ (વાકેઅ ગુલિસ્તાને ઓકાડવી બાબુલ મદીના કરાચી) મેં “જવાની કી ઇબાદત કે ફઝાઈલ” કે ઉન્વાન સે બયાન ફરમાયા, જિસ કી મદદ સે યેહ રિસાલા નઅ મવાદ કે કાફી ઇઝાફે કે સાથ મુરત્તબ કિયા ગયા હૈ.



(ઈસ્લામી)

(ઈસ્લામી)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### કિતાબ પઢને કી દુઆ

અઝ : શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી, હઝરત અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ૨-ઝવી રાહમતુલ્લાહિ 'એલેહી  
દામત્ બરકાતુહુમ્માલિહી  
દીની કિતાબ યા ઈસ્લામી સબક પઢને સે પહલે ઝૈલ મેં દી હુઈ દુઆ પઢ લીજિયે  
إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ જો કુછ પઢેગે યાદ રહેગા. દુઆ યેહ હે :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

તરજમા : એ અલ્લાહ ઈઝ્ઝલ્ ! હમ પર ઈલ્મો હિક્મત કે દરવાઝે ખોલ દે ઓર હમ પર અપની રહમત નાઝિલ ફરમા ! એ અ-ઝમત ઓર બુઝુર્ગી વાલે । (دارالفکر بیروت) (المستطرف ج ۱ ص ۱)  
નોટ : અવ્વલ આખિર એક એક બાર દુરૂદ શરીફ પઢ લીજિયે.

તાલિબે ગમે મદીના  
વ બકીઅ  
વ મસ્જિદત  
13 શવ્વાલુલ મુકર્રમ 1428 હિ.

### જવાની કેસે ગુમારે ?

યેહ રિસાલા (જવાની કેસે ગુમારે ?)

શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી હઝરત અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ૨-ઝવી ઝિયાઈ રાહમતુલ્લાહિ 'એલેહી કે બયાન સે માખૂઝ હૈ જિસે મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા ને ઉર્દૂ ઝબાન મેં પેશ કિયા હૈ.

મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી) ને ઈસ રિસાલે કો ગુજરાતી રસ્મુલ ખત મેં તરતીબ દે કર પેશ કિયા હે ઓર મક-ત-બતુલ મદીના સે શાએઅ કરવાયા હૈ. ઈસ મેં અગર કિસી જગહ કમી બેશી પાએ તો મજલિસે તરાજિમ કો (બઝરીઅએ મક્તૂબ, ઈ-મેઈલ યા SMS) મુત્તલઅ ફરમા કર સવાબ કમાઈયે.

રાબિતા : મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી)

મક-ત-બતુલ મદીના, સિલેક્ટેડ હાઉસ, અલિફ કી મસ્જિદ કે સામને,  
તીન દરવાઝા, અહમદઆબાદ-1, ગુજરાત, ઈન્ડિયા

MO. 9374031409 • E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## जवानी कैसे गुजरें ?

शैतान लाभ सुस्ती दिलाये येह रिसाला मुकम्मल पढ लीजिये।  
ان شاء الله عزوجل अजरो सवाल की दौलत पाने के साथ साथ जवानी की  
धबादत और धस की कद्रो अहम्मियत जानने का मौकअ मिलेगा।

### दुइ शरीइ की इमीलत

शउन्शाडे मदीना, करारे कलबो सीना, साडिबे मुअत्तर  
पसीना. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने आइय्यत निशान  
है : “अै लोगो ! बेशक तुम में से बरोजे क्रियामत उस की दइशतों  
और खिसाब किताब से जल्ल नजात पाने वाला वोह शप्स ढोगा,  
जिस ने दुन्या में मुज पर कसरत से दुइइ पढा ढोगा।”

(جَمْعُ الْجَوَامِعِ ١٢٩/٩٠، حَدِيثُ ٢٧٦٨٦ مختصراً)

इशर की ती-रगी सियाडी में नूर है, शम्मे पुर जिया है दुइइ  
छोडियो मत दुइइ को कफी राडे जन्त का रइनुमा है दुइइ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### जवानी की तलाश

खिकायत बयान की जाती है के अेक बूढा शप्स कहीं से  
गुजर रहा था, बुढापे की वजह से उस की कमर धस कदर जुकी  
हुई थी के चलते हुअे यूं लगता था के येह बूढा शप्स जमीन से  
कुध तलाश कर रहा है अेक नौ जवान को मस्भरी सूजी और

عَزَّوَجَلَّ اَللّٰهُ اَعْلٰى وَ اَسْمٰى : जिस ने मुझ पर अेक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रडभते बेजता है. (س)

कहने लगा : बडे भियां ! क्या तलाश कर रहे हो ? बात अगर्चे गुस्सा दलवाने वाली थी मगर उस बूढे ने सभ्र व बरदाशत और समजदारी का क्माल मुजा-हरा किया और तन्ज के ँस जहरीले कांटे के जवाब में क्क अंगेज म-दनी कूल पेश करते हुअे इरमाया : “बेटा ! मैं अपनी जवानी तलाश कर रहा हूं.” तीजे जुम्ले का येड भिलाई तवक्कोअ हैरान कुन जवाब सुन कर वोड नौ जवान यौका और कहने लगा : बाबा ज ! आप की बात समज नहीं आई, क्या जवानी भी कभी ढूंडी जा सकती है ? और क्या येड अेक दइआ गुम हो कर क्क कभी किसी को मिली है ? इरमाया : बेटा ! येडी तो अइसोस है के जब जवानी की ने'मत मेरे पास थी उस वक्त ँस की पासदारी न कर सका और आज जब मैं ँस से डाय धो बैडा तब ँस की अडम्मियत का अेडसास हुवा. काश ! मुजे जवानी का जमाना अेक बार क्क मिल जाता तो माजी में डोने वाली ग-लतियों और कोतालियों की तलाई करता और भूब दल लगा कर अल्लाह क्क ँबादत करता.

اَلَا يَتُوبُ النَّبِيُّ يَوْمًا

فَاُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيْبُ

या'नी डअे काश ! मेरी जवानी कभी पलट कर आती, तो मैं उस को बताता के बुढापे ने मेरे साथ क्या सुलूक किया.

क्क अेक आडे सई दले पुरदई से पींची और कडा :

अइसोस सई अइसोस ! मैं अपनी जवानी की डौलत लुटा

﴿رَمَانَهُ مُسْتَكْفًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ : जो शप्स मुज पर दुइदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (ज़रन)

बैठा, लेकिन ! “अब पछताये क्या होवत जब चिडियां युग गर्ध भेत.” मैं ने जवानी की ना कद्री की, उस वक्त नेकी की न आभिरत की कोई तय्यारी की और यूंही मेरी जवानी गइलत के बिस्तर पर सोते गुजर गर्ध.

दिन भर भेलों में भाक उडाई लाज आई न जरों की हंसी से  
शभ भर सोने ही से गरज थी तारों ने हज़ार दांत पीसे

(हदाईके बप्शिश)

अब जब के बुढापा तारी हो गया, तो सिद्धत कमज़ोर और जिस्म लागर हो गया, कररते ईबाहत का शौक तो पैदा हुवा लेकिन बुढापे के सबभ हौसला साथ छोड गया.

झिर वोह जईकुल उम्र शप्स उस नौ जवान पर ईन्किरादी कोशिश करते हुअे कहुने लगा : भेटा ! अल्हाड اَلْحَمْدُ के झलवो अेहसान से तुम अभी नौ जवान हो, ईस से झाअेदा उठा लो, ईबाहत पर कमर बस्ता हो जाओ, कमर जुकने से पहले रभ तआला के हुज़ूर सर को जुका लो, वरना बुढापे में मेरी तरह कमर जुकाअे जवानी को तलाश करते झिरोगे लेकिन हसरत व नदामत के सिवा कुछ न मिलेगा. कइे अइसोस भलते रहोगे लेकिन हाथ कुछ न आअेगा और हालात का कुछ ईस तरह से सामना होगे : “भयपन भेल में भोया, जवानी नींद भर सोया, बुढापा टेभ कर रोया.”

ईस मुश्किलाना और नासिहाना अन्दाजे गुइत-गू और ईन्किरादी कोशिश के म-दनी झूलों की भुशू ने उस नौ

કરમાને મુસ્તફા : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुःखे पाक न पढा तबकीक वोह भद भक्त हो गया. (उर्दू)

જવાન કે દિલો દિમાગ કો મુઅત્તર ઔર ઉસે બેહદ મુ-તઅસ્સિર ક્રિયા. થોડી દેર પહલે ઉસ બૂઢે પર તન્જ કે તીર ચલાને વાલા નૌ જવાન ઇન્ફિરાદી કોશિશ સે મુ-તઅસ્સિર હો કર અબ ઉસી બૂઢે કે સામને આયિન્દા કે લિયે જવાની કી કદ્ર ઔર પરહેઝ ગારી કી ઝિન્દગી બસર કરને કા અહ્દો પૈમાન કર રહા થા.

શહઝાદએ આ'લા હઝરત, મુફ્તિયે આ'ઝમે હિન્દ મૌલાના મુસ્તફા રઝા ખાન عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن અપને ના'તિયા દીવાન “સામાને બખ્શિશ” મેં જવાની કી કદ્રદાની કા દર્સ દેતે હુએ ફરમાતે હેં :

રિયાઝત કે યેહી દિન હેં, બુઢાપે મેં કહાં હિમ્મત

જો કુછ કરના હો અબ કર લો, અભી નૂરી જવાં તુમ હો

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

**ઈંટ કે જવાબ મેં ફૂલ પેશ કીજિયે !**

મીઠે મીઠે ઇસ્લામી ભાઈયો ! બયાન કર્દા પુર હિક્મત હિકાયત અપને દામન મેં ઇબ્રત વ નસીહત કે બેશ બહા મ-દની ફૂલ લિયે હુએ હૈ. ઉન મેં સે એક મ-દની ફૂલ યેહ હૈ કે અગર કોઈ આપ સે તન્કીદી લહજા યા તન્જિયા રવય્યા અપનાએ તો ઈંટ કા જવાબ પથ્થર સે દેને કે બજાએ સબ્રો તહમ્મુલ સે કામ લીજિયે. મૌકઅ કી મુના-સબત સે અહ્સન અન્દાઝ મેં સમઝાને કી કોશિશ ઔર ઝહરીલે કાંટોં કે જવાબ મેં મ-દની ફૂલ પેશ કરને કી રવિશ اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ મ-દની નતાઈજ સે સરફરાઝ કરેગી.

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઇલ્મિયા (દા'વતે ઇસ્લામી)

ફરમાને મુસ્તકા : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : જિસ ને મુઝ પર દસ મરતબા સુબહ ઓર દસ મરતબા શામ દુરુદ પાક પઢા ઉસે કિયામત કે દિન મેરી શફાઅત મિલેગી. (ત્રી, ૧૯૬)

બલકે ઈસ મ-દની મક્સદ કી રાહ મેં આસાનિયાં પૈદા કર કે મ-દની ઈન્કિલાબ બરપા કર દેગી કે “મુઝે અપની ઓર સારી દુન્યા કે લોગોં કી ઈસ્લાહ કી કોશિશ કરની હૈ.”

تُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا لَوْلَا الَّذِي نَسُتُ بِهِ لَهُمْ لَفَسَدَتِ أَعْيُنُهُمْ فَابْصُرُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

શૈતાન કે હર વાર કો નાકામ બના દે

(વસાઈલે બખ્શિશ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## નેકી કી દા'વત આમ કીજિયે

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! ઈસ વાકિએ સે યેહ મ-દની ફૂલ ભી મિલા કે મુસલમાનોં કો સમજાને ઓર “નેકી કી દા'વત” આમ કરને કી કોશિશ કરતે રહના ચાહિયે કે ઈસ મેં અપની ઓર દીગર ઈસ્લામી ભાઈયોં કી દીની વ દુન્યવી ભલાઈયાં પોશીદા હૈં, જૈસા કે પારહ 27 સૂ-રતુઝારિયાત, આયત નમ્બર 55 મેં અલ્લાહ ﷻ કા ફરમાને આલીશાન હૈ :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ

السُّؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

તર-જ-મએ કન્ઝુલ ઈમાન : ઓર સમજાઓ, કે સમજાના મુસલમાનોં કો ફાએદા દેતા હૈ.

મુઝે તુમ ઐસી દો હિમ્મત આકા દૂં સબ કો નેકી કી દા'વત આકા

બના દો મુઝ કો ભી નેક ખસલત નબિયે રહમત, શફીએ ઉમ્મત

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

કરમાને મુસ્તફા : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुःख शरीक न पड़ा उस ने जफ़ा की. (عبدالرزاق)

## મતાએ વક્ત કી કદ્ર કીજિયે

ઈસ હિકાયત સે યેહ ભી પતા ચલા કે વક્ત કી ના કદ્રી બિલ આબિર નદામત લાતી હૈ, ખુસૂસન અય્યામે જવાની મેં બે ફિકી, લા પરવાહી ઓર ઇન હસીન લમ્હાત કી બે કદ્રી બુઢાપે મેં પછતાવે કા સબબ બનતી હૈ. ક્યૂંકે જિન કી જવાની કા સફર ગુનાહોં કી તારીકિયોં મેં ગુઝરતા હૈ જબ વોહ બુઢાપે કે આલમ મેં નેકિયોં કી રોશનિયોં કી તરફ રુખ મોડતે હૈં તો બહુત દેર હો ચુકી હોતી હૈ ઓર ઉસ વક્ત આદમી કુછ કરના ભી યાહે તો જિસ્મ વ આ'ઝા કી કમઝોરી ઓર સિહ્હત કી ખરાબી હોસલે પસ્ત કર દેતી હૈ, લિહાઝા જબ તક જવાની કી ને'મત હૈ ઓર સિહ્હત સલામત હૈ, તો ઈસ કો ગનીમત જાનતે હુએ ઝિયાદા સે ઝિયાદા ઈબાદત ઓર અચ્છે કામોં કી આદત પર ઈસ્તિકામત પાને કી કોશિશ કીજિયે ઓર અગર આજ નેકિયોં સે જી ચુરા કર, બદિયોં મેં દિલ લગા કર હિમ્મત વ સલાહિયત ઓર વક્ત કી ને'મત ગંવા બૈઠે તો કલ પછતાવા હોગા લેકિન ઉસ વક્ત કા પછતાના ઓર અફસોસ સે હાથ મલના કિસી કામ ન આએગા. વક્ત કી તેઝ રફતાર ધાર હમારે લૈલો નહાર (યા'ની દિન રાત) કો કાટતી ચલી જા રહી હૈ, વક્ત કી લગામ કબ કિસી કે હાથ આઈ હૈ ઓર વક્ત કી ગાડી સે કૌન કહે કે ઝરા આહિસ્તા ચલ ! પસ આજ વક્ત કી કદ્ર કીજિયે ઓર ઈસ સે ફાએદા ઉઠાઈયે વરના ફિર ગયા વક્ત યાદ તો આએગા મગર હાથ ન આએગા.

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)



﴿رَمَانَهُ مُسْتَقِيمًا﴾ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुज पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ पढेगा में कियामत के दिन उस की शकाअत कड़ेगा. (कुरआन)

सदा ऐश दौरां दिपाता नही

गया वक्त फिर हाथ आता नही

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

## जवानी की ता'रीफ़

दा'वते ईस्लामी के ईशाअती ईदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ 1548 सफ़हात पर मुशतमिल किताब "ईजाने सुन्नत" जिल्द अक्वल सफ़हा 713 पर है : "लुगात की कुतुब के मुताबिक (बादिग होने से ले कर) 30 या 40 बरस तक आदमी जवान रहता है, 30 या 50 बरस जवानी और बुढापे का दरमियानी वक़्त या'नी उधेड और इस के आ'द बुढापा आ जाता है."

## ईजाने कुरआन और नौ जवान

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों से सहीह मा'नों में जवानी ही में काम लिया जा सकता है, एल्मे दीन हासिल करने और मुता-लआ करने की उम्र ली जवानी ही है, बुढापे में तो बारहा अक्लो इहूम की कुव्वतें बेकार हो कर रह जाती हैं, गौरो झिक की सलाहियतें मांढ (डलकी, कमजोर) पड जाती हैं, याद दाशत का पजाना ખाली हो जाता है, दिमाग ખलल का शिकार होने के सभब ईन्सान बर्यों की सी उ-र-कतें करने लग जाता है और उस से

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल ईल्मिया (दा'वते ईस्लामी)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ: صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: મુઝ પર દુરુદે પાક કી કસરત કરો બેશક યેહ તુમ્હારે લિયે તહારત હૈ. (બૌઘલ)

બા'ઝ અવકાત એસી મુઝહકા ખૈઝ હ-રકાત કા સુદૂર હોતા હૈ કે બે ઈખ્તિયાર હંસી આ જાએ. લેકિન ખુશ ખબરી હૈ ઉસ નૌ જવાન કે લિય જો તિલાવતે કુરઆન કા આદી હૈ, કે અગર એસે નૌ જવાન કો બુઢાપા આયા તો વોહ ઈન આઝમાઈશોં ઓર આફતોં સે મહફૂઝ રહેગા. જૈસા કી મુફસ્સિરે શહીર, હકીમુલ ઉમ્મત મુફતી અહમદ યાર ખાન નઈમી عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ نક્લ ફરમાતે હૈં : “હઝરતે સય્યિદુના ઈકરિમા رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ફરમાતે હૈં : જો મુસલ્માન તિલાવતે કુરઆન કા આદી હો, ઉસ પર إِنَّ شَاءَ اللهُ تَعَالَى યેહ (યા'ની જવાની મેં હાસિલ કિયે ગએ ઈલ્મ કો બુઢાપે મેં ભૂલને કી) હાલત તારી ન હોગી.”

(નૂરુલ ઈરફાન, પારહ : 17, અલ હજજ, તહ્તલ આયહ : 5)

ફિલ્મોં સે ડિરામોં સે દે નફરત તૂ ઈલાહી! બસ શૌક મુઝે ના'તો તિલાવત કા ખુદા દે

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## જવાની કી ઇબાદત બુઢાપે મેં સબબે આફિયત

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! મઝકૂરા રિવાયત સે પતા ચલા કે તિલાવતે કુરઆન કરને વાલા નૌ જવાન અગર બુઢાપે કી દહલીઝ પર પહોંચ ગયા તો કુરઆન કી તિલાવત કી બ-ર-કત સે ઉસ હાલત મેં નિસ્યાન (યા'ની ભૂલ જાને) કી આફત સે મહફૂઝ રહેગા. યેહ મન્ઝર તો આમ મુલા-હઝા કિયા જા સકતા હૈ કે અક્સર બૂઢે હિઝ્યાન (યા'ની બેહૂદા ગોઈ) વ નિસ્યાન (ભૂલ જાને) કે મરઝ મેં મુખ્તલા નઝર આતે હૈં, લેકિન બા'ઝ

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : તુમ જહાં ભી હો મુઝ પર દુરૂદ પઢો કે તુમહારા દુરૂદ મુઝ તક પહોંચતા હૈ. (ખુરૂન)

ખુશ નસીબ એસે ભી હૈ જો અગર્યે બુઢાપે કી મન્જિલ સે હમ-કનાર હૈ, લેકિન ફિર ભી ઈલ્મી જલાલત ઓર ઝેહની કુવ્વત કી એસી શાનો શૌકત, કે દેખને વાલે કો વર્તએ હૈરત (યા'ની ઈન્તિહાઈ હૈરત) મેં ડાલ દે, ઈન સારી અ-ઝ-મતોં કા એક સબબ જવાની કી ઈબાદત ઓર કુરઆને પાક કી તિલાવત હૈ.

### મદ્ર-સતુલ મદીના બાલિગાન

اَللّٰهُمَّ ! જવાનોં મેં ઈબાદતો રિયાઝત કા ઝૌકો શૌક બઢાને ઓર તા'લીમે કુરઆન કો આમ કરને કે લિયે તબ્લીગે કુરઆનો સુન્નત કી આલમગીર ગૈર સિયાસી તહરીક દા'વતે ઈસ્લામી કી ભરપૂર કોશિશોં કાબિલે સિતાઈશ હૈં. જિન મેં સે એક “મદ્ર-સતુલ મદીના બાલિગાન” ભી હૈ, દુન્યા ભર મેં મુખ્તલિફ મકામાત ઓર મસાજિદ મેં ઉમૂમન બા'દ નમાઝે ઈશા હઝારહા મદ્ર-સતુલ મદીના કી તરકીબ હોતી હૈ, જિન મેં ઈસ્લામી ભાઈ સહીહ મખારિજ સે, હુરૂફ કી દુરુસ્ત અદાએગી કે સાથ કુરઆને કરીમ સીખતે, દુઆએં યાદ કરતે, નમાઝેં દુરુસ્ત કરતે ઓર સુન્નતોં કી તા'લીમ મુફ્ત હાસિલ કરતે હૈં.

યેહી હૈ આરઝૂ તા'લીમે કુરઆં આમ હો જાએ  
હર ઈક પરચમ સે ઊંચા પરચમે ઈસ્લામ હો જાએ

### મદ્ર-સતુલ મદીના બાલિગાત

اَللّٰهُمَّ ! દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ કે તહ્ત કુરઆને પાક કી તા'લીમ (હિફઝ વ નાઝિરા) કો આમ

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुर्रदे पाक पढा अल्लाह  
 عز وجل उस पर सो रकभते नाज़िल करता है. (अ. ५)

करने के लिये इस्लामी भाईयों के मद्र-सतुल मदीना बालिगान के साथ साथ बड़ी उम्र की इस्लामी बहनों के मद्र-सतुल मदीना बालिगात की भी तरकीब है, जिस में हज़ारों इस्लामी बहनें कुरआने पाक की मुफ़्त ता'लीम हासिल करती हैं. इन मदारिस में इस्लामी बहनें ही इस्लामी बहनों को पढाती हैं, इस के इलावा अन्हरने व बैरने मुल्क ला ता'दाद मदारिस बनाम "मद्र-सतुल मदीना" काँम हैं. पाकिस्तान में (र-जबुल मुरज्जब 1435 हि. तक) कमो बेश 2064 मदारिस काँम हैं, जिन में तकरीबन 101410 म-दनी मुन्नों और म-दनी मुन्नियों को डिफ़्ज़ व नाज़िरा की मुफ़्त ता'लीम दी जा रही है.

अता हो शौक मौला मद्रसे में आने जाने का  
 बुदाया जौक दे कुरआन पढने का, पढाने का

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

म-दनी माहोल ने अदना को आ'ला कर दिया

दा'वते इस्लामी के शो'बे "मद्र-सतुल मदीना बराअे बालिगान" ने अेक नौ जवान के लिये कुरआन सीखना, अफ्लाकियात संवारना, इबादात में दिल लगाना बल्के यूं समजिये के आभिरत का सामान करना आसान कर दिया है. जैसा के अेक इस्लामी भाई के बयान का लुब्बे लुबाब है : "मेरे गुनाह बहुत जियादा थे. जिन में V.C.R. की लीड (Lead) सप्लाय करना, रातों को औबाश लउकों के साथ धूमना,

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइए शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कजूस तरीन शप्स है. (ज़िज़ीब)

રોઝાના દો બલકે તીન તીન ફિલ્મં દેખના, વેરાયટી પ્રોગ્રામ્સ (Variety programs) મેં રાતેં કાલી કરના શામિલ હૈ. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ! બાબુલ મદીના કરાયી કે અલાકે “નયાઆબાદ” કે એક ઈસ્લામી ભાઈ કી મુસલ્સલ ઈન્કિરાદી કોશિશ કી બ-ર-કત સે અલાકે કે મદ્ર-સતુલ મદીના (બરાએ બાલિગાન) મેં જાને કી તરકીબ બની ઔર ઈસ તરહ આશિકાને રસૂલ કી સોહબત મિલી ઔર મેં તબ્લીગે કુરઆનો સુન્નત કી આલમગીર ગૈર સિયાસી તહરીક દા’વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હો કર મ-દની કામોં મેં મસરૂફ હો ગયા.”

(ગીબત કી તબાહ કારિયાં, સ. 147)

હમેં આલિમોં ઔર બુઝુર્ગોં કે આદાબ સિખાતા હૈ હર દમ સદા મ-દની માહોલ હેં ઈસ્લામી ભાઈ સભી ભાઈ ભાઈ હૈ બેહદ મહબ્બત ભરા મ-દની માહોલ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### જવાની કો ગનીમત જાનિયે

જલીલુલ કદ્ર તાબેઈ હઝરતે સય્યિદુના અમ્ર બિન મૈમૂન ઔદી **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** સે રિવાયત હૈ કે સરકારે નામદાર, મદીને કે તાજદાર **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ને એક શપ્સ કો નસીહત કરતે હુએ ફરમાયા : “પાંચ (ચીઝોં) કો પાંચ સે પહલે ગનીમત જાનો : બુઢાપે સે પહલે જવાની કો, બીમારી સે પહલે તન્દુરુસ્તી કો, ફકીરી સે પહલે અમીરી કો, મસરૂફિયત સે પહલે ફુરસત કો ઔર મૌત સે પહલે ઝિન્દગી કો.”

(مشكاة المصابيح، كتاب الرقاق، الفصل الثاني، ٢٤٥/٢، حديث: ٥١٧٤)

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા’વતે ઈસ્લામી)

﴿فرمانے میں مستفیض علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم﴾ : اسی شہس کی ناک پاک آلودہ ہو جس کے پاس میرا جیک  
 ڈو اور وہ لہ موز پر دڑدے پاک نہ پدے. (م)﴾

मशहूर सूफी शाईर हजरते सय्यिदुना शौभ मुस्लिहदीन  
 सा'दी शीराजी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي فرमाते हैं :

كُنُوتُ كِه دَسْتَسْتِ حَارِي بُكُنُ  
 بُوْغَرِ كِي بُرْآرِي تُو دُسْتُ أَزْ كَفَنُ

(بوستانِ سعدی، باب اَوَّل، در عدل و تدبیر و رای، ص ۴۸)

(या'नी औ गाङ्गिल शह्स ! अब जह के तेरे सिह्लत व  
 हिम्मत वाले हाथ कुशादा हैं तो ँन हाथों से कोछ काम कर ले, कल  
 जह येह कङ्गन में बंध जाऐ तो हिर भुलना कहां नसीब !)

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

### जवानी की कद्र कीजिये

जवानी के मु-तअल्लिक हकीमुल उम्मत मुङ्गी अहमद  
 यार भान नईमी رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَنِي के तहरीर कर्दा कलाम का भुलासा  
 है : जवानी भेलकूद में गंवा कर बुढापे में जह के आ'जा बेकार  
 हो जाऐ, कस्ते ँबादत की ज्वालिश करना बे वुकूई है, जो  
 करना है जवानी में कर लो, के जवाने सालेह का बहुत बडा  
 द-रजा है. लिहाजा सिह्लत, जवानी, मालदारी और जिन्दगी  
 को राओगां (या'नी जाओअ) न जाने दो, ँस में नेक आ'माल  
 कर लो, के येह ने'भतें बार बार नहीं मिलतीं. भियां मुहम्मद  
 भज्श عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى फरमाते हैं :

सदा न हुस्न जवानी रेहंटी, सदा न सोहबते यारां  
 सदा न भुलभुल बागां बोले, सदा न बाग बडारां

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल ँल्मिया (दा'वते ँस्लामी)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरइ पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अमल)

યા'ની યેહ હસીન જવાની હમેશા સલામત નહીં રહતી ઔર ન હી દોસ્ત વ અહબાબ કી સોહબતેં હમેશા બાકી રહતી હેં. બાગ મેં રોઝાના ચહ-ચહાને વાલી બુલબુલેં ઔર બાગ કી બહારેં ભી સદા રહને વાલી નહીં. (મિરઆતુલ મનાજ્જહ, જિ. 7, સ. 16 બ તસરુફ)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

### બ વક્તે રિહલત હઝરત અમીરે મુઆવિયા કા ફરમાન

હઝરતે સચ્ચિદુના અમીરે મુઆવિયા رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ કા જબ વક્તે વિસાલ કરીબ આયા, તો આપ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ને ફરમાયા : “મુઝે બિઠાઓ.” જબ બિઠાયા ગયા તો આપ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ઝિકુલ્લાહ ઔર તસ્બીહ મેં મશગૂલ હો ગએ. ફિર રોતે હુએ અપને આપ કો મુખાતબ કર કે (બતૌરે આજિઝી) ફરમાને લગે : “ઐ મુઆવિયા (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) ! અબ બુઠાપે ઔર કમઝોરી કે વક્ત અલ્લાહ عَزَّوَجَلَّ કા ઝિક યાદ આયા, ઉસ વક્ત કયા થા જબ જવાની કી શાખ તરો તાઝા થી.”

(لِبَابِ الْإِحْيَاءِ، الْبَابِ الْارْبَعُونَ فِي نِكْرِ الْمَوْتِ وَمَابَعْدَهُ، ص ٣٥٢، مختصراً)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

### બુઝુર્ગોં કી આજિઝી હમારે લિયે રહનુમાઈ

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! હમારે અસ્લાફે કિરામ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام કિસ કદર નેકિયોં કે કદ્રદાન ઔર આજિઝી કે પૈકર થે કે મહબૂબે રબ્બે અકબર صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ કે

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

ફરમાને મુસ્તફા : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : મુઝ પર દુરુદ શરીફ પઢો અલ્લાહ ઈઝ્જલ જુમ પર રહમત ભેજા. (અબુ દાઉદ)

જલીલુલ કદ્ર સહાબી હોને ઓર સારી ઝિન્દગી નેકિયોં મેં બસર કરને કે બા વુજૂદ હસરત હૈ કે કાશ ! કસરતે ઇબાદતો રિયાઝત કી મઝીદ સઆદત નસીબ હો જાતી, આપ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ કી ઇસ આજિઝી મેં હમારે લિયે રહનુમાઈ હૈ કે ઐ જવાનો ! જવાની બહુત બડી ને'મત હૈ, ઇસ કી કદ્ર કરો, ઇસે ફુઝૂલિયાત મેં મત ગુઝારો વરના જબ હોશ આએગા તો ઉસ વક્ત તીર કમાન સે નિકલ યુકા હોગા ઓર કમાન સે નિકલે તીર વાપસ નહીં આયા કરતે.

عَافِلٌ مَنَشِئِينَ نَهَ وَوَقْتُ بَازَى سَت  
وَقْتُ هُنَرَ اسْت وَكَارُ سَازَى سَت

યા'ની ઐ નૌ જવાન ! ગાફિલ ન બૈઠ, યેહ ફુરસત વ ગફલત કા વક્ત નહીં બલ્કે હુનર સીખને ઓર કામકાજ કરને કા વક્ત હૈ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

### ઇબાદત કી બ-ર-કત સે બુઢાપે મેં ભી જવાન

હઝરતે અલ્લામા ઇબને રજબ હમ્બલી عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي હમ્બલી જવાની મેં ઇબાદત કે મુ-તઅલ્લિક ફરમાતે હેં : “જિસ ને અલ્લાહ ઈઝ્જલ કો ઉસ વક્ત યાદ રખા જબ વોહ જવાન ઓર તુવાના થા, અલ્લાહ ઈઝ્જલ ઉસ કા ઉસ વક્ત ખયાલ રખેગા જબ વોહ બૂઢા ઓર કમઝોર હો જાએગા ઓર ઉસે બુઢાપે મેં ભી અચ્છી કુલ્વતે સમાઅત, બસારત, તાકત ઓર ઝહાનત અતા ફરમાએગા. હઝરતે અબુતયિયબ તબરી رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ને સો સાલ સે ઝિયાદા ઉમ્ર પાઈ, આપ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ઝેહની વ



﴿فَرَمَانَهُ مُنْتَضِكًا﴾ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُنْجَىٰ عَلٰی كَسْرَتِ سَعْدِ رَدِّهِ پَاكِ پَدُوٓ بَشَاكِ تُمْبَارَا مُنْجَىٰ  
پَر دُرْدِهٖ پَاكِ پَدُوٓ تُمْبَارَا رُوٓنَا لُوٓ كِهٖ لِيَهٗ مَغْدِرَتِ هٖ. (پہلے)

जिस्मानी लिहलज से तन्दुरुस्त और तुवाना थे, आप  
رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى سے किसी ने सिद्धत का राज पूछा तो ईशाद  
इरमाया : “में ने जवानी में अपनी जिस्मानी सलाहियतों  
को गुनाह से मडकूज रखा और आज जब मैं बूढा हो गया हूं  
तो अल्लाह ﷻ ने एन्हें मेरे लिये बाकी रखा है. इस के भर  
अक्स हजरते जुनैद رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ने ओक बूढे शप्स को देखा  
जो लोगों से मांग रहा था, आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ने इरमाया :  
इस शप्स ने जवानी में अल्लाह ﷻ (के हुकूक) को जाओअ  
किया तो अल्लाह ﷻ ने बुढापे में इस (की कुव्वत) को जाओअ  
इरमा दिया.” (مجموعه رسائل ابن رجب، ۱۰۰/۳ ملخصاً)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

## जवानी की मेहनत बुढापे में सहूलत

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो! पुश खबरी है उस सालेह  
जवान के लिये जिस की जवानी अल्लाह ﷻ की एबादत में  
गुजरी और एबादत करते करते बुढापे की मज्जिल आ गई  
और बुढापे भी औसा, के जौके एबादत तो है लेकिन सिद्धत  
व हिम्मत साथ नहीं दे रही, तो اِنْ شَاءَ اللهُ ﷻ उसे इस लायारी  
के आलम में भी सिद्धत व जवानी में की हुई एबादतों  
जितना सवाब मिलता रहेगा युनान्थे हजरते सय्यिदुना अनस  
बिन मालिक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ इरमाते हैं : “जब बन्दा (हालते  
ईस्लाम में नेकियां करते हुओ) उम्र के आखिरी हिस्से में पड़ोय  
जाओ तो अल्लाह तआला उस के नामओ आ'माल में बराबर

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल ईल्मिया (दा'वते ईस्लामी)

عَزَّوَجَلَّ اَللّٰهُ اَعْلٰى شَرِيْكَهٖ مُؤْتٰى : جَوَّ مُؤْتٰى پَر اَعَك دُرُود شَرِيْكَهٖ پَدَهَتَا هٗ اَللّٰهُ اَعْلٰى  
 (عَبْدَالرَّزَّاقِ) اُس كے ليے اَعَك كِي رَا ت اَجَّ لِي پَتَا هٗ اَوْر كِي رَا ت اَبُو د پَدَا اِ جِي تِنَا هٗ .

નેકિયાં સખત (તહરીર) ફરમાતા રહતા હૈ જો વોહ અપની સિહ્હત કે ઝમાને મેં કિયા કરતા થા.”

(مُسْنَدُ أَبِي يٰغْلٰى، مَسْنَدُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ٢٩٣/٣، حَدِيثُ: ٣٦٦٦، مُلْتَقَطًا)

## સાલેહ જવાન કે લિયે બુઢાપે મેં ઇન્આમ

હકીમુલ ઉમ્મત મુફ્તી અહમદ યાર ખાન નઈમી ફરમાતે હેં : જો બૂઢા આદમી બુઢાપે કી વજહ સે ઝિયાદા ઇબાદત ન કર સકે મગર જવાની મેં બડી ઇબાદતેં કરતા રહા હો તો અલ્લાહ તઆલા ઉસે મા'જૂર કરાર દે કર ઉસ કે નામએ આ'માલ મેં વોહી જવાની કી ઇબાદત લિખતા હૈ. (આરિફ બિલ્લાહ હઝરતે સચ્ચિદુના શૈખ સા'દી શીરાઝી ફરમાતે હેં :)

رَسَمِ اسْتُ كِه مَالِكَانَ تَحْرِيرِ اَزَاد كُنُنْدُ بِنْدُهُ پَيْر

اَمَ بَارِ خُدَا، اَمَ عَالَمِ اَزَا بَرَسْعَدِي پَيْرِ خُوْد بَهْ بَخْشَا

(યા'ની ગુલામોં કે માલિકોં કા तरीका હૈ કે વોહ બૂઢે ગુલામ કો આઝાદ કર દેતે હેં, ઐ મેરે પરવર દગાર عَزَّوَجَلَّ ! ઐ દુન્યા કો આરાસ્તા કરને વાલે ! ઝઈકુલ ઉમ્ર સા'દી કી ભી બખ્શિશ વ મગ્ફિરત ફરમા દે.)

(મિરઆતુલ મનાજીહ, જિ. 7, સ. 89)

લિહાઝા જવાની કી કદ્ર કરતે હુએ ઝિયાદા સે ઝિયાદા ઇબાદત કીજિયે, તાકે કલ જબ બુઢાપા ઝિયાદા ઇબાદત કરને સે મા'જૂર કર દે તો અલ્લાહ عَزَّوَجَلَّ કી બારગાહે બેકસ પનાહ સે સિહ્હત વ જવાની વાલી ઇબાદત જૈસા સવાબ મિલતા રહે.

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઇલ્મિયા (દા'વતે ઇસ્લામી)

इरमाने मुस्तक़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस ने किताब में मुज़ पर दुइरुद पाक लिखा तो ज़ब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिफ़ार करते रहेंगे. (ज़ाज़)

## अल्लाह का महबूब बनना

उद्दीसे कुदसी है : उजरते सय्यिहुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है के नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने आलीशान है के अल्लाह عَزَّوَجَلَّ इशार्द इरमाता है : “मेरी तकदीर पर इमान लाने वाला, मेरे लिबे पर राजी रहने वाला, मेरे दिये हुअे रिज़्क पर कनाअत करने वाला और मेरी रिज़ा की फ़ातिर अपनी नइसानी शहवात को तर्क करने वाला नौ जवान मेरी बारगाह में मेरे आ’ज़ फिरिश्तों की मानिन्द है.”

(مَجْمَعُ الْكَوَامِلِ ٢٧١/١٠٠٠ حَدِيث: ٢٨٧١٤)

वाकेई ! अगर इन्सान अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का मुतीओ इरमां भरदार और उस के महबूब रहमते आ-लमिय्यान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का सय्या गुलाम बन जाअे तो वोह फिरिश्तों की मानिन्द बल्के आ’ज़ फिरिश्तों से ल्मी अइज़ल हो जाता है.

फिरिश्तों से बेउतर है इन्सान बनना मगर इस में लगती है मेहनत ज़ियादा

## फिरिश्तों से अइज़ल कौन ?

मीठे मीठे इस्लामी भाईयो ! याद रहे “हमारे रसूल मलाअेका के रसूलों से अइज़ल हैं और मलाअेका के रसूल हमारे औलिया से अइज़ल हैं और हमारे औलिया अवामे मलाअेका या’नी गैरे रसूल से अइज़ल हैं. कुस्साक व कुज्जर, मलाअेका से किसी तरह अइज़ल नहीं हो सकते.”

(इतावा र-जविह्या, जि. 29, स. 391, ०१००, النبراس)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा’वते इस्लामी)

﴿فَرَمَانَهُ مُسْتَقِيمًا﴾ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरुदे पाक पढा अद्लाह  
﴿عَزَّ وَجَلَّ﴾ (उस पर दस रहमतें भेजता है. (स्म.)

उजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी है, नबिय्ये रहमत, शफीअे उम्मत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने भा अ-उमत है : “अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ औसे शप्स से महबुबत इरमाता है जिस ने अपनी जवानी को र्थताअते षुदा वन्दी के लिये वक्फ कर दिया डो.”  
(جِلَّةُ الْأَرْكَانِ، ٣٩٤/٥، مطبوعه: ١٩٦٧)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

मीठे मीठे र्स्लामी भाईयो ! बयान कर्दा डो रिवायात र्थताअत शिआरों के लिये अपने दामन में कसीर ब-रकातो र्थनायात समोअे डुअे हें के जो सआदत मन्द अपनी उअे जवान षुदाअे उन्नान व मन्नान عَزَّ وَجَلَّ की रिआ वाले कामों और उस की बन्दगी में गुजारे, ना जार्ज उमंगों और बुरी ष्वालिशों से अपने दामन को बयाअे रअे, उस के लिये अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ की बारगाह से मकामे र्ज्जतो अ-उमत और द-र-जअे महबूबियत पाने की उम्मीद व नवीद है क्यूंके जवानी में नईस के मुंजोर घोडे को लगाम देना मुश्किल डोता है, र्सी वजह से र्भादते शबाब (या'नी जवानी की र्भादत) को जियादा इजीलत डसिल है, जैसा के डकीमुल उम्मत उजरते अद्लामा मुफ्ती अडमद यार पान नर्भी رَحْمَةُ اللهِ اَعْنَى तडरीर इरमाते हें : “जवानी में गुनाडों से बये और रब عَزَّ وَجَلَّ को याद रअे यूंके जवानी में आ'जा कवी और नईस गुनाडों की तरफ (जियादा) माईल डोता है र्स लिये र्स उमाने की र्भादत षुढापे की र्भादत से अइजल है.” (मिरआतुल मनाज्जल, जि. 1, स. 435)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल र्ख्मिया (दा'वते र्स्लामी)

﴿رَبِّمَانِهِ مُسْتَفِئًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ﴾ : जे शप्स मुजे पर दुइदे पाक पढना भूल गया  
 वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (ज़रफ़)

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! ईस दौरे पुर इतिहास में  
 जब के बह किस्मती से कसीर नौ जवान कुरआनो सुन्नत से  
 दूर, जवानी की मस्ती में मज्मूर, हिर्सी ह-वसे दुनिया के नशे  
 में यूरे और नईसो शैतान के हाथों मजबूर हो कर गुनाहों  
 और बे हयाईयों के सैलाब में बहते चले जा रहे थे, के तब्दीगे  
 कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते  
 ईस्लामी ने ईस्लाहे उम्मत का अ-लमे हिम्मत जुलन्द किया  
 और ईस बे राह-रवी व बे हयाई के सैलाब को रोकने की  
 काम्याब कोशिशों का सफ़र शुरू कर दिया. दा'वते ईस्लामी  
 की काम्याबी जुली किताब की मानिन्द आज सब पर आशकार  
 (या'नी वाजेह) है, के वोह नौ जवान जे शैताने ना हन्जार  
 और नईसे बे लगाम के गुलाम नजर आते थे, भुश किस्मती  
 से दा'वते ईस्लामी के म-दनी माहोल से वाबस्ता हुअे तो उन  
 की बे रौनक जिन्दगियों में म-दनी इन्किलाब की बहार आ  
 गई और वोह अपनी जवानी के पुर बहार अय्याम अल्वाह  
 عَزَّوَجَلَّ और उस के प्यारे रसूल ﷺ के नाम पर  
 वकई कर के ईस म-दनी मकसद को आम करने वाले बन गअे  
 के “मुजे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की ईस्लाह की कोशिश  
 करनी है.”

## नौ जवानाने मिल्लत और दा'वते इस्लामी

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ! दा'वते ईस्लामी के म-दनी माहोल के

कसीरुता'दाह इन्किलाबी इकदामात में से अेक अहम तरीन

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते ईस्लामी)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्दे पाक न पढा तबकीक वोह बदे भक्त हो गया. (उर्द)

કદમ યેહ હૈ કે ઈસ મ-દની માહોલ ને ગુનાહોં મેં ગલ્તાં (લુઢકને) ઔર હર દમ દુન્યવી મુસ્તકબલ કી બેહતરી કી ફિક મેં પરેશાં રહને વાલે નૌ જવાં કો શાહરાહે તક્વા પર ગામઝન (યા'ની ચલને વાલા) ઔર ફિકે આખિરત કે લિયે મસરૂકે અમલ કર દિયા. ઈસી મ-દની માહોલ કી બ-ર-કત સે કસીર નૌ જવાન ઈસ્લામી ભાઈ દુન્યવી રંગીનિયોં ઔર જવાની કી ગફલત શિઆરિયોં સે મુંહ મોડ કર રાહે ખુદા કે લિયે વક્ફ હો ગએ. ઈસે દા'વતે ઈસ્લામી કી ઈસ્તિલાહ મેં “વક્ફે મદીના” કહા જાતા હૈ.

મકબૂલ જહાં ભર મેં હો દા'વતે ઈસ્લામી

સદકા તુજે એ રબ્બે ગફફાર ! મદીને કા

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

### બેહતરીન ઝિન્દગી કા રાઝ

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! આપ સે મ-દની ઈલ્તિજા હૈ કે અપની દુન્યા વ આખિરત કો બેહતર ઔર ઝિન્દગી કે લમ્હાત કો કીમતી બનાને કે લિયે દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હો કર અલ્લાહ ﷻ કી ઈબાદત પર કમર બસ્તા હો જાઈયે, કે બેહતરીન ઝિન્દગી કા રાઝ અલ્લાહ ﷻ કી ઈબાદત વ ઈતાઅત મેં મુઝ્મર (યા'ની પોશીદા) હૈ. જૈસા કે મુફ્સિરે શહીર, હકીમુલ ઉમ્મત હઝરતે અલ્લામા મૌલાના મુફ્તી અહમદ યાર ખાન عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ الْمَنَّان ફરમાતે હેં : “ઝિન્દગી હર શખ્સ કી ગુઝરતી હૈ, બેહતરીન ઝિન્દગી વોહ હૈ જો રબ તબા-ર-ક વ તઆલા કે લિયે વક્ફ હો જાએ. અલ્લાહ

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

ફરમાને મુસ્તકા صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर एक बार दुइडे पाक पढा अद्लाह  
 (س) عُزْرَجَلْ (उस पर दस रहमतें भेजता है.)

तआला ने जैसे ही लोगों के लिये स-दकात का ખુसूसी હુકમ  
 દિયા જો અપની ઝિન્દગી અદલાહ (عَزْرَجَلْ) કે લિયે વક્ફ કર  
 ચુકે.” (તફસીરે નઈમી, જિ. ૩, સ. 134, મુલ્તકિતન)

અદલાહ રબ્બુલ ઈઝ્ઝત عُزْرَجَلْ કી ઉન પર રહમત હો ઔર  
 ઉન કે સદકે હમારી બે હિસાબ મગ્ફિરત હો.

أصين بجاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

કળા હક હૈ, મગર ઈસ શૌક કા અદલાહ વાલી હૈ  
 જો ઉન કી રાહ મેં જાએ વોહ જાન અદલાહ વાલી હૈ

(હદાઇકે બખ્શિશ)

### સત્તર સિદ્દીકીન કા સવાબ પાને વાલા

હઝરતે સય્યિદુના અનસ બિન માલિક رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 रिवायत ફરમાતે હેં रसूलुद्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशा'द  
 ફરમાયા : અદલાહ عُزْرَجَلْ કી હરામ કર્દા ચીઝોં સે બચને ઔર ઉસ કે  
 અહકામાત પર અમલ કરને વાલે નૌ જવાન સે અદલાહ عُزْرَجَلْ  
 ફરમાતા હૈ તેરે લિયે સત્તર સિદ્દીકોં કે બરાબર સવાબ હૈ.

(الترغيب في فضائل الاعمال، باب فضل عبادة الشاب الخ، ص 78 مختصراً)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### અલ્લાહ કા હકીકી બન્દા

હઝરતે સય્યિદુના અબ્દુલ્લાહ બિન મસ્ઉદ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 સે મરવી હૈ કે रसूलुद्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ફરમાયા :  
 અદલાહ عُزْرَجَلْ અપની મખ્લૂક મેં ઉસ ખૂબ-રૂ નૌ જવાન કો સબ સે

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

इरमाने मुस्कि। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुळ पर दुइडे पाक पढना भूल गया वोड जन्नत का रास्ता भूल गया. (गुरान)

जियादा पसन्द इरमाता हे के जिस ने अपनी जवानी और हुस्नो जमाल को अद्लाह عَزَّوَجَلَّ की इबादत में सर्फ कर दिया हो, अद्लाह عَزَّوَجَلَّ किरिशतों के सामने जैसे बन्दे पर इफ्र करता और इशार्द इरमाता हे : “येह मेरा हकीकी बन्दा हे.”

(الترغيب في فضائل الاعمال، باب فضل عبادة الشاب الخ، ص १४)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

मीठे मीठे इस्लामी भाईयो ! कितने पुश अप्त हैं वोड नौ जवान जिन्हें अद्लाह عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में महबूबियत का शरफ़ हासिल हो जाये, जिन की जवानी अद्लाह عَزَّوَجَلَّ की इताअत में गुजरी, भा वुजूद कुदरत के जिन का दामन नफ़स की यालों और शैतान के जालों में न उलजा और जिन पर थोड़े भुदा का ग-लबा रहा, उन पुश नसीबों के लिये जिक कर्दा रिवायते मुबा-रका मुज्दअे जां किजा हे और ऐसा नौ जवान मुआ-शरे में भी मकामो मर्तबा और इज्जतो अ-जमत का हा मिल हे.

वोही जवां हे कबीले की आंभ का तारा  
शबाभ जिस का हे बे दाग, जर्ब हे कारी

## भा हया नौ जवान

जवानी की बहारों को मदीने की पुशबूओं से मुअत्तर करने, आलमे शबाभ को गुनाहों के दाग धब्बों से बयाने और शर्मो हया का पैकर बनने के लिये दा'वते इस्लामी के

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)



ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ठिक छुवा और उस ने मुझ पर दुइडे पाक न पढा तलकीक वोड भद भप्त हो गया. (उंगल)

ઈશાઅતી ઈદારે મક-ત-બતુલ મદીના સે સુન્નતોં ભરા બયાન બનામ “બા હયા નૌ જવાન” કા કેસિટ હદિથ્યતન હાસિલ કીજિયે. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ! ઈસ બયાન કા 64 સફહાત પર મુશ્તમિલ રિસાલા ભી મક-ત-બતુલ મદીના સે હદિથ્યતન મિલ સકતા હે. ખુદ ભી પઢિયે ઓર દૂસરોં કો ભી તોહફતન પેશ કીજિયે, اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ કસીર બ-ર-કતોં કા ખઝાના હાથ આએગા.

જવાનોં કો બે રાહ-રવી વ સુસ્તી કી રવિશ છોડને, અસ્લાફે કિરામ رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام કી પૈરવી મેં દીનો મિલ્લત કી ખિદમત કરને ઓર દીને ઈસ્લામ કો હી દુન્યા વ આખિરત મેં કામ્યાબી કા ઝરીઆ સમઝને કા ઝેહન દેતે હુએ શાઈર ને ક્યા ખૂબ કહા હે :

તેરે સોફે હેં અફરંગી, તેરે કાલીં હેં ઈરાની લહૂ મુઝ કો રુલાતી હે જવાનોં કી તન-આસાની અમારત ક્યા, શકોહે ખુસ્રવી ભી હો તો ક્યા હાસિલ ન ઝોરે હેંદરી તુઝ મેં, ન ઈસ્તિગ્નાએ સલમાની ન હૂંડ ઈસ ચીઝ કો તહઝીબે હાઝિર કી તજલ્લી મેં કે પાયા મેં ને ઈસ્તિગ્ના મેં મે'રાજે મુસલ્માની

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

## જવાની ને'મતે ખુદા વન્દી

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! જવાની અલ્લાહ ﷻ કી બહુત બડી ને'મત હૈ જિસે યેહ ને'મત મિલે ઉસે ઈસ કી કદ્ર કરતે હુએ ઝિયાદા સે ઝિયાદા વક્ત ઈબાદત વ ઈતાઅત મેં ગુઝારના ચાહિયે, વક્ત કે અનમોલ હીરોં કો નફ્અ રસાનિયોં કા ઝરીઆ બનાના ચાહિયે. હકીમુલ ઉમ્મત હઝરત મુફતી

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

﴿رَمَانَهُ مُسْتَقِيمًا﴾ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा शाम दुर्दे पाक पढा उसे कियामत के दिन मेरी शक्रात मिलेगी. (16/7/8)

अहमद यार ખાન عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن نکل فرماتے ہیں : “जवानी की एबादत बुढापे की एबादत से अइजल है, के एबादात का अस्ल वक्त जवानी है. शे'र

कर जवानी में एबादत, काडिली अखी नहीं जब बुढापा आ गया कुछ बात बन पडती नहीं है बुढापा भी गनीमत जब जवानी हो युकी येह बुढापा भी न होगा मौत जिस दम आ गध वक्त की कद्र करो, एसे गनीमत जानो. गया वक्त फिर हाथ आता नहीं.” (मिरआतुल मनाज्जल, जि. 3, स. 167) और पुसूसन अय्यामे जवानी के अवकात की कद्रदानी बहुत जरूरी है क्यूंके जवानी में एन्सान के आ'जा मजबूत और ताकत वर होते हैं, जिस की वजह से अहकाम व एबादात की बजा आ-वरी, तन्दही और बडी पुश उस्लूबी के साथ मुम्किन होती है, बुढापे में फिर येह बहारें कहां नसीब ! उस वक्त तो मस्जिद तक जाना भी दुश्वार हो जाता है. लूक प्यास की शिदत को बरदाश्त करने की हिम्मत भी नहीं रहती, नइल तो कुजा इर्ज रोजे पूरे करना भी भारी पड जाते हैं और वैसे भी जवानी की एबादत एम्नियाजी हैसियत रभती है जैसा के

### एबादत गुजार जवान की इजीलत

उजरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है, नबिय्ये करीम, रउिर्हुर्लीम عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ का एशदि अजीम है : “सुब्ह के वक्त एबादत करने वाले नौ जवान को बुढापे में एबादत करने वाले बूढे पर औसी इजीलत हासिल है के

इरमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्द  
शरीफ़ न पढ़ा उस ने जफ़ा की. (عبرالزمان)

जैसी मुर-सलीन (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) को तमाम लोगों पर.”

(جمع الجوامع १/२२०/०५: १६४६९)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

भीठे भीठे इस्लामी भाईयो ! इस रिवायत से मा'लूम हुआ के इबादत गुजार जवान यकीनन पुश भप्त है, उस के लिये बहुत सारी इजीबतों और सआदतों की नवीद (या'नी पुश भबरी) है, लेकिन इस तरह की रिवायात से कोई येह मतलब अफ़्ज न करे के बूढे तो किसी भाते में ही नहीं. मेरे प्यारे इस्लामी भाईयो ! औसा नहीं, याद रभिये ! येह इस्लामी मुआ-शरे की इन्किरादिय्यत व पुसूसिय्यत है के वोह बूढों और जईफ़ों को भी बुलन्धियों से हम-कनार करता है, इस्लाम में बूढों को ओज समज कर घर से निकाल देने और और इन्हें किसी इदारे में “जम्अ” करवा देने का कोई तसप्पुर नहीं, इस्लाम का तुर्रअे इम्तियाज है के इस दीने मुबीन में बिला तफ़रीके रंगो नस्ल व बिला इम्तियाजे उम्रो कद हर मुसल्मान अपना भास मकाम रभता है, जिस का लिहाज रभना दूसरे मुसल्मान पर लाजिम है, इस की मुप्तसर वजाहत दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-भतुल मदीना के मत्बूआ 32 सफ़हात पर मुशतमिल “ओडतिरामे मुस्लिम” नामी रिसाले में भी की गई है. अल गरज ! हर मुसल्मान ज्वाह वोह बूढा हो या जवान, नजरे इस्लाम में उस की भास अहम्मिय्यत व शान है. युनान्थे

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

ફરમાને મુસ્તકા صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : જો મુઝ પર રોઝે જુમુઆ દુરુદ શરીફ પઢેગા મેં ક્રિયામત કે દિન ઉસ કી શકાઅત કરુંગા. (ક્રામલ)

## બુઢાપે કે ફઝાઇલ

મહબૂબે રબ્બે ઝુલ જલાલ, બીબી આમિના કે લાલ  
 صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم કા ફરમાને બા કમાલ હૈ : “સફેદ બાલ ન  
 ઉખાડો ક્યુંકે વોહ મુસ્લિમ કા નૂર હૈ, જો શખ્સ ઇસ્લામ મેં બૂઢા હુવા  
 અલ્લાહ ઈસ કી વજહ સે ઉસ કે લિયે નેકી લિખેગા ઓર ખતા  
 મિટા દેગા ઓર દ-રજા બુલન્દ કરેગા.”

(અબુદાઉદ, ક્તાબ તરજીલ, બાબ ફી તન્ફ શશીબ, ૧/૦૬, હદીથ: ૬૨૦૨)

હઝરતે સય્યિદુના કા'બ બિન મુર્હુલ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم સે  
 રિવાયત હૈ કે હુઝૂરે પુરનૂર, શાફેએ યૌમુન્નુશૂર صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰલِہٖ وَسَلَّم  
 કા ઈશદિ પુરનૂર હૈ : “જો ઇસ્લામ મેં બૂઢા હુવા, યેહ બુઢાપા ઉસ કે  
 લિયે ક્રિયામત કે દિન નૂર હોગા.”

(તરમિઝી, ક્તાબ ફઝાઇલ જહાદ, બાબ માજા ફી ફઝલ મન શાબ શશીબે ફી સબીલ લ્લાહ, ૨૩૪/૩૦, હદીથ: ૧૬૬૧)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

લિહાઝા ઝઈફુલ ઉમ્ર ઇસ્લામી ભાઈ ભી દિલ છોટા ન  
 કરેં ઓર માયૂસી કી કાલી ઘટા અપને ઊપર તારી ન હોને દેં, કે  
 “જબ જાગે હુવા સવેરા.”

કિસી ને ક્યા ખૂબ કહા હૈ :

હે બુઢાપા ભી ગનીમત જબ જવાની હો ચુકી

યેહ બુઢાપા ભી ન હોગા, મૌત જિસ દમ આ ગઈ

અગર સફરે હયાત કે કિસી ભી મોડ પર શુઊર બેદાર હો

જાએ તો ભી માયૂસ ન હોં બલકે ઉસે ગનીમત તસવ્વુર કીજિયે

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઇસ્લામી)

करमाने मुस्तक। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुइद पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये तदारत है. (रुयैली)

और सुब्हे जिन्दगी की शाम होने से पहले पहले आडो ज़ारी और तकवा व परहेज़ ग़ारी के ज़रीअे अल्लाह عَزَّوَجَلَّ को राज़ी करने की कोशिशों में मसइफ़ हो जाईये और उम्मीदो भीम (या'नी उम्मीद व भौइ) के मिले जुले ज़उबात के सडारे, दामन पसारे (इैलाअे), अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की बारगाह की तरफ़ रुजूअ कीजिये, ईस आयते उम्मीद अइज़ा “لَا تَقْطُؤْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ” (तर-ज-मअे कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो. (۴: ११६))” को पेशे नज़र रअिये, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ نأा उम्मीद व ખाली दामन नहीं बलके मइइरतों और बअिशिशों की दौलते ला ज़वाल से मालामाल हो कर पलटेंगे.

न हो नौमीद, नौमीदी ज़वाले ईलमो ईरफ़ां है

उमीदें मई मोमिन हैं खुदा के राजदानों में

और येह त्नी जेहून नशीन रहे के उम्र के किसी त्नी डिस्से में ज़वाह बुढापे में ही सडी, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में तौबा करना ખुश बअ्तों का डिस्सा है वरना इी ज़माना कई हज़रात बुढापे की दहलीज़ पर कदम रअने के बा वुजूद मुअ्तलिफ़ किस्म के खेलों और दौगर हुराम कामों में सामाने लज़्ज़त तलाश करने की कोशिश में मसइफ़ रहते हैं. जवानी तो पहले ही गइलत में बरबाद कर दी, बुढापे में त्नी तौइके खैर न मिली, तो अब जिन्दगी के और कौन से लम्हात अैसे मिलेंगे, के जिन में आखिरत की तय्यारी मुम्किन हो सके ?

कर न पीरी में तू गइलत ईफ्तियार जिन्दगी का अब नहीं कुछ अैतिबार हलक पर है मौत के खन्जर की धार कर अस अब अपने को मुदों में शुमार

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल ईल्मिया (दा'वते ईस्लामी)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّيْ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : તુમ જહાં ભી હો મુઝ પર દુરુદ પઢો કે તુમહારા દુરુદ મુઝ તક પહોંચતા હૈ. (ખૂબ)

એક દિન મરના હૈ આબિર મૌત હૈ  
કર લે જો કરના હૈ આબિર મૌત હૈ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْبِ ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَی مُحَمَّدٍ  
تُوبُوْا اِلَی اللّٰهِ ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ  
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْبِ ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَی مُحَمَّدٍ

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! હમ્ને અપની જવાની કી કદ્ર કરની ચાહિયે વરના બુઢાપે મેં બા'ઝ અવકાત પછતાવે કે સાએ પરેશાન કરતે હૈં ઓર ઉસ વક્ત કુછ બન નહીં પડતા, બન્દા કુછ કરના ચાહતા હૈ લેકિન હૌસલા સાથ નહીં દેતા, જવાની કો યાદ કરતા હૈ લેકિન જવાની ને તો વાપસ આના નહીં ઓર બુઢાપે સે ઉક્તાતા હૈ મગર ઉસ ને ભી જાના નહીં ઓર ન ઉસ વક્ત પછતાને કા કોઈ ફાએદા હૈ.

જો આ કે ન જાએ વોહ બુઢાપા દેખા  
જો જા કે ન આએ વોહ જવાની દેખી

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! યકીનન જવાની કી ઈબાદત કે બહુત ઝિયાદા ફઝાઈલ હૈં, જવાની મેં ઈબાદત કરને ઓર અપને આપ કો ગુનાહોં સે બચા કર રખને વાલે કો અલ્લાહ કિસ તરહ નવાઝતા હૈ યુનાન્યે

### સાલેહ નૌ જવાન કો મિલને વાલા ઇન્શામ

દા'વતે ઈસ્લામી કે ઈશાઅતી ઈદારે મક-ત-બતુલ મદીના કે મત્બૂઆ 56 સફહાત પર મુશ્તમિલ રિસાલે “કરામાતે ફારુકે આ'ઝમ” સફહા 24 પર હૈ : મુશીરે રસૂલ, અમીરુલ

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

﴿رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ﴾  
 ફરમાને मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर दस मरतबा दुरुद पाक पढा अल्लाह  
 (طبرانی) (उस पर सो रडमते नाज़िल फ़रमाता है.)

मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ाड़के आ'ज़म **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** एक मरतबा एक सालेह (या'नी परहेज़ गार) नौ जवान की क़भ्र पर तशरीफ़ ले गये और फ़रमाया : **أَيُّ كُفُلًا ! اَللّٰهُ اَللّٰهُ** ने वा'दा फ़रमाया है :

**وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَبَّتُنِ** तर-ज-मअे कन्जुल ईमान : और जो अपने रब के हुज़ूर षडे डोने से डरे उस के लिये दो जन्तों हैं.

(प २८, الرّٰحْمٰن: २१)

औ नौ जवान ! बता ! तेरा क़भ्र में क्या डाल है ? उस सालेह (बा अमल) नौ जवान ने क़भ्र के अन्दर से आप **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** का नाम ले कर पुकारा और ब आवाजे बुलन्द दो मरतबा जवाब दिया : **“يَا'نِي مَرَّةً اَخْطَا فِيْهَا رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ فِي الْحَيٰةِ”** : मेरे रब **عَزَّوَجَلَّ** ने येड दोनों जन्तों मुजे अता फ़रमा दी हैं.”

(تاريخ مدينة دمشق ٤٥٠/٤٥٠)

**صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ**

ईस वाकिअे से पता यला के जो शप्स नेकियों त्मरी जिन्दगी गुजारेगा और षौंके षुदा **عَزَّوَجَلَّ** से लरज़ां व तरसां रहेगा, वोड अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** की रडमते कामिला से दो जन्तों का मुस्तहिक ठहरेगा. लिडलज़ा जवानी को नेकी व परहेज़ गारी में सई कीजिये, ष्वाडिशते नफ़सानी की पैरवी से बयिये, अभी से संतल ज़ाईये ! याद रभिये ! येड हुस्नो जवानी दौलते फ़ानी है और ईस पर गुडर व तक़ब्बुर हमाकत व नादानी है.

पेशकश : मशविसे अल मदीनतुल ईल्मिया (दा'वते ईस्लामी)

करमान मुस्तकः صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुःख शरीफ़ न पड़े तो वोह लोगों में से क्यूँस तरीन शम्स है. (ज़िबः)

ढल जायेगी येह जवानी जिस पे तुज को नाज है

तू भजा ले याहे जितना यार दिन का साज है

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! اسْتَغْفِرُ اللَّهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो! अब दो आबिद व भाईक

नौ जवानों के हैरत अंगेज वाकिआत मुला-हजा इरमाईये और देभिये के याहे जुदा एज़्ज़ल से दिलों को आबाद करने वालों को कैसी करामात से नवाजा जाता है युनान्चे

### जा करामत नौ जवान

उसरते सय्यिदुना मालिक बिन दीनार عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفَّار मुझे सप्त प्यास लगी तो मैं इरमाते हूँ के अक सइर के दौरान मुझे सप्त प्यास लगी तो मैं पानी की तलाश में अक वादी की जानिब चल पडा. अयानक मैं ने अक भौइनाक आवाज सुनी, तो सोया : शायद ! कोई दरिन्दा है जो मेरी तरफ़ आ रहा है. युनान्चे मैं भागने ली वाला था के पहाड़ों से किसी ने मुझे पुकार कर कहा : “अै ईन्सान ! अैसा कोई मुआ-मला नहीं जिस तरह तुम समज रहे हो, येह तो अल्लाह एज़्ज़ल का अक वली है जिस ने शिदते उसरत से अक लम्बी सांस ली तो उस की आवाज बुलन्द हो गई.” जब मैं अपने रास्ते की जानिब वापस पलटा तो अक नौ जवान को ईबादत में भशगूल पाया. मैं ने उसे सलाम किया और अपनी प्यास का बताया तो उस ने कहा : “अै मालिक



ફરમાને મુસ્તફા صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : ઉસ શાપ્સ કી નાક ખાક આવૂદ હો જિસ કે પાસ મેરા ઝિક હો ઓર વોહ મુઝ પર દુરૂદે પાક ન પઢે. (૫૯)

(رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) ! ઈતની બડી સલ્તનત મેં તુઝે પાની કા એક કતરા ભી નહીં મિલા.” ફિર વોહ ચઢાન કી તરફ ગયા ઓર ઉસે ઠોકર માર કર કહને લગા : “ઉસ ઝાત કી કુદરત સે હમેં પાની સે સૈરાબ કર જો બોસીદા હકિયોં કો ભી ઝિન્દા ફરમાને પર કાદિર હૈ.” અયાનક ચઢાન સે પાની ઐસે બહને લગા જૈસે ચશમે સે બહતા હૈ. મેં ને જી ભર કર પીને કે બા’દ અર્ઝ કી : “મુઝે ઐસી ચીઝ કી નસીહત ફરમાઈયે જિસ સે મુઝે નફ્અ હોતા રહે.” તો ઉસ ને કહા : “તન્હાઈ મેં અલ્લાહ عَزَّوَجَلَّ કી ઈબાદત મેં મશ્ગૂલ હો જાઈયે, વોહ (رَبِّ عَزَّوَجَلَّ) આપ કો જંગલાત મેં પાની સે સૈરાબ કર દેગા.” ઈતના કહ કર વોહ અપને રાસ્તે પર ચલા ગયા.

(الروض الفائق، ص ۱۶۶، بتصرف)

મેરી ઝિન્દગી બસ તેરી બન્દગી મેં હી ઐ કાશ ! ગુઝરે સદા યા ઈલાહી

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

## સાલેહ વ ખાઈફ નૌ જવાન

હઝરતે સચ્ચિદુના ઝુન્નૂન મિસ્રી عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي એક બાર મુલકે શામ તશરીફ લે ગએ, આપ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا ગુઝર એક નિહાયત સર સબ્જો શાદાબ ખુશનુમા બાગ સે હુવા, તો દેખા કે એક નૌ જવાન સેબ કે દરખ્ત કે નીચે નમાઝ મેં મશ્ગૂલ હૈ. આપ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى કો ઉસ સાલેહ જવાન સે હમ-કલામી કા ઈશ્તિયાક હુવા. જબ ઉસ ને સલામ ફૈરા તો આપ ને ઉસે અપની જાનિબ મુ-તવજ્જેહ કરને કી કોશિશ કી તો ઉસ ને જવાબ દેને કે બજાએ ઝમીન પર ચેહ શે’ર લિખ દિયા :

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા’વતે ઈસ્લામી)

इरमाने मुस्तक। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَرَسَلُهُ : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुइडे पाक पढा।  
(उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे.) (कुरआन)

مُنِعَ اللِّسَانَ مِنَ الكَلَامِ لِأَنَّهُ  
فَإِذَا نَطَقَتْ فَكُنْ لِرَبِّكَ ذَاكِرًا  
كَهْفُ البَلَاءِ وَجَالِبِ الْأَفَاتِ  
لَا تَنْسَهُ وَأَحْمِدُهُ فِي الْحَالَاتِ

या'नी जवान कलाम से रोक दी गई है क्यूंके येह (जवान) तरह तरह की बलाओं का गार और आफ़ात लाने वाली है इस लिये जब बोलो तो अल्वाह عَزَّوَجَلَّ का जिक्र करो, उसे किसी वक्त इराभोश न करो और हर हाल में उस की हम्द बजा लाते रहो.

नौ जवान की इस तहरीर का आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه के कल्मे अन्वर पर गहरा असर हुवा और आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه पर गिर्या तारी हो गया. जब ईफ़ाका हुवा तो आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه ने ली जवानन जमीन पर उंगली से येह अश्मार लिख दिये :

وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلَّا سَيَّلِي  
فَلَا تَكُتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ  
وَيُثْقَى الدُّهْرُ مَا كَتَبْتَ يَدَا  
بِمُسْرُكَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ

या'नी हर लिखने वाला अक दिन कब्र में जा मिलेगा मगर उस की तहरीर हमेशा बाकी रहेगी इस लिये अपने हाथ से औसी बात लिखो जिसे देख कर बरोजे क्रियामत तुम्हें खुशी मिले.

हजरते सय्यिदुना सुन्नून मिररी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ का बयान है के मेरा नविशता (तहरीर) पढ कर उस जवाने सालेह ने अक थीष मारी और अपनी जान जाने आइरी के सिपुई कर दी. मैं ने सोया के इस की तजहीजो तकईन का ईन्तजाम कर हूं मगर हातिके गैबी ने आवाज दी : सुन्नून ! इसे रहने दो, रब्बे काअेनात عَزَّوَجَلَّ ने इस से अह्द किया है के इरिशते तेरी

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज़ पर दुःख शरीफ़ पढो अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा. (ابن عمر)

तज्जीजो तक़ीन करेगे. येह सुन कर आप रَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ भाग के अक गोशे में मसःके ँबादत हो गःओ और यन्द् रकःआत पढने के भा'द देभा तो वहां उस नौ जवान का नामो निशान भी न था.

(روض الریحین، ص ۴۹، بتصرف)

रहूं मस्तो बेभुद में तेरी विला में  
पिला जम असा पिला या ँवाही !

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

सायअे अर्श पाने वाले भुश नसीब

जवानी में ँबादत करने और भौके भुदा रञ्जल रभने वालों को भुबारक हो, के बरोजे कियामत जब सूरज अक मील पर रह कर आग बरसा रहा होगा, सायअे अर्श के ँलावा उस जंगुजा (या'नी जान को अजियत देने वाली) गरमी से बयने का कोर्ष जरीआ न होगा तो अल्लाह रञ्जल जैसे भुश किरमत नौ जवान को अपने अर्श का सायअे रहमत अता इरमाअेगा जैसे के हजरते सय्यिदुना ँमाम अब्दुर्हमान जलालुद्दीन सुयूती शाके ँ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكُفَى नकल इरमाते हैं : हजरते सय्यिदुना सलमान रञ्जल त्कालिः ने हजरते सय्यिदुना अबू दरदा रञ्जल त्कालिः की तरफ़ भत लिभा, के “ँन सिफ़ात के हामिल भुसल्मान अर्श के साअे में होंगे : (उन में से दो येह हैं) (1)..... वोह शप्स जिस की नशवो नमा ँस हाल में हुँ के उस की सोहभत, जवानी और कुवत अल्लाह रञ्जल की पसन्द् और रिजा वाले कामों में सर्फ़ हुँ और (2)..... वोह शप्स

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल ँल्मिया (दा'वते ँस्लामी)

फरमाने मुस्तक़ा صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ : मुज पर कसरत से दुरुदे पाक पढो बेशक तुम्हारा मुज पर दुरुदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मञ्जिरत है. (राज़िज़)

जिस ने अद्लाह عَزَّوَجَلَّ का जिक्र किया और उस के भौंक से उस की आंभों से आंसू बह निकले.”

(مُصَنَّفُ اٰنِبِ شَيْبَةَ، كِتَابُ الزَّهْدِ، كَلَامُ سَلْمَانَ، ١٧٩/٨، حَدِيثُ: ١٢، مَلْتَقَطًا)

या रब ! मैं तेरे भौंक से रोता रहूँ अकसर

तू अपनी महबूबत में मुझे मस्त बना दे

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

हमारे अस्वाड़े किराम رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَامِ जवानी की बहुत कद्र करते और इस की कद्र करने की तल्कीन भी फरमाते युनान्घे

### धमाम गज़ाली की नसीहत

हुज्जतुल इस्लाम हजरते सय्यिदुना धमाम अबू हामिद मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّوَالِي जवानों और तौबा में टाल मटोल करने वालों को समजाते हुअे इशार्दि फरमाते हैं : “क्या तुम गौर नहीं करते के तुम कब से अपने नफ्स से वा’दा कर रहे हो, के कल अमल कर्तूंगा, कल कर्तूंगा और वोह “कल” “आज” में भदल गया. क्या तुम नहीं जानते के जो “कल” आया और यला गया वोह गुजश्ता “कल” में तब्दील हो गया बल्के अस्ल बात येह है के तुम “आज” अमल करने से आजिज हो तो “कल” जियादा आजिज होगे (आज का काम कल पर छोडने और तौबा व इताअत में ताप्पिर करने वाला) उस आदमी की तरह है के जो दरप्त को उप्पाडने से जवानी में आजिज हो और उसे दूसरे साल तक मुअप्पर कर दे हालांके वोह जानता है के जूं जूं वक्त गुजरता यला जायेगा दरप्त जियाद मजबूत और पुप्ता होता जायेगा और उप्पाडने वाला

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

ફરમાને મુસ્તફા : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : જો મુઝ પર એક દુરુદ શરીફ પઢતા હે અલ્લાહ ઘરુજલ (અસ કે લિયે એક કીરાત અજ વિખતા હે ઓર કીરાત ઉલુદ પહાડ જિતના હે. (મુબારક))

કમઝોર-તર હોતા જાએગા પસ જો ઉસે જવાની મેં ન ઉખાડ સકા વોહ બુઢાપે મેં કત્અન ન ઉખાડ સકેગા.” (اخية العلوم، ٧٢/٤)  
 ઉતરતે ચાંદ ઢલતી ચાંદની જો હો સકે કર લે  
 અંધેરા પાખ આતા હે યેહ દો દિન કી ઉજાલી હે

(હદાઈકે બખ્શિશ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! ઈમામ ગઝાલી  
 ફરમાને મુસ્તફા કા યેહ મુબારક ફરમાન કિસ કદર ફિક અંગેઝ  
 હે કે જો શખ્સ જવાની મેં અહકામે શરઈચ્યા વ ઈતાઅતે  
 ઈલાહિય્યહ કી બજા આ-વરી મેં કોતાહી બરત્તા હે તો ઉસ  
 સે કેસે ઉમ્મીદ રખી જા સકતી હે કે વોહ બુઢાપે મેં ઈન  
 ગ-લતિયોં કા મુદાવા કર સકેગા ક્યૂંકે ઉસ વક્ત તો જિસ્મ વ  
 આ'ઝા કમઝોરી કા શિકાર હો ચુકે હોંગે લિહાઝા જવાની કો  
 ગનીમત જાનિયે ઓર ઈસી ઉમ્ર મેં નફ્સ કે બે લગામ ઓર  
 મુંહઝોર ઘોરે કો લગામ દે દીજિયે ઓર તૌબા કરને મેં જલ્દી  
 કીજિયે કે ન જાને કિસ વક્ત પૈગામે અજલ (યા'ની મૌત કા  
 પૈગામ) આ જાએ ક્યૂંકે મૌત તો ન જવાની કા લિહાઝા કરતી હે  
 ન બચપન કી પરવાહ.

મૌત ન દેખે હુસ્નો જવાની ન યેહ દેખે બચપન ખ્વાહ હો ઉમ્ર અઠારહ બરસી યા હો જાવે પચપન  
 લિહાઝા ખ્વાહ ઉમ્ર કા કોઈ ભી હિસ્સા હો, મૌત કો  
 પેશે નઝર રખિયે, તૌબા કરને મેં જલ્દી કીજિયે ઓર જવાન  
 તો ઈસ પર ઝિયાદા ધ્યાન દે, કે જવાની કી તૌબા અલ્લાહ  
 ેઝરુજલ કો બહુત પસન્દ હે ચુનાન્થે

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

﴿فرمانے میں نے﴾: ﴿صلى الله تعالى عليه وآله وسلم﴾: ﴿جس نے﴾ ﴿کتاب میں﴾ ﴿میں﴾ ﴿پاک﴾ ﴿دیکھا﴾ ﴿تو﴾ ﴿جب﴾ ﴿تک﴾ ﴿میرا﴾ ﴿نام﴾ ﴿اس﴾ ﴿میں﴾ ﴿رہے﴾ ﴿گا﴾ ﴿ذرا﴾ ﴿بھی﴾ ﴿اس﴾ ﴿کے﴾ ﴿لیئے﴾ ﴿ہی﴾ ﴿رہیں﴾ ﴿گے﴾. ﴿(نہجۃ﴾

## जवानी में तौबा की इज्जत

अल्लाह के महबूब, दानाअे गुयूब, मुनज़्ज़लुन अनिल उयूब **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का इरमाने आलीशान है : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ** शप्स अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** का महबूब है.”

(کنز العمال، کتاب التوبة، الفصل الاول فی النہج، الجزء ۴، ۸۷/۳، حدیث: ۱۰۱۸۱)

## जवानी में तौबा करने वाला महबूब क्यूं ?

मुबद्विगो इस्लाम उजरते अल्लामा शौष शुअैब उरीकीश **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** इरमाते हैं : **“अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** की अपने बन्दे से महबूबत उस वक्त होती है जब के वोह जवानी में तौबा करने वाला हो क्यूंके नौ जवान तर और सर सञ्ज टहनी की तरह होता है. जब वोह अपनी जवानी और हर तरफ से शहवात व लज़्जात से लुत्फ उठाने और उन की रगबत पैदा होने की उम्र में तौबा करता है, और येह अैसा वक्त होता है के दुन्या उस की तरफ मु-तवज्जेल होती है. इस के बा वुजूद महज़ रिआअे इलाही के लिये वोह इन तमाम यीजों को तर्क कर देता है तो अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** की महबूबत का मुस्तहिक बन जाता है और उस के मकबूल बन्दों में उस का शुमार होने लगता है.”**

(इकायतें और नसीहतें, स. 75)

उजरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** से

पेशकश : मजबिसे अल मदीनतुव इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक बार दुइडे पाक पढा अल्लाह  
 (مسلم) उस पर दस रकमतेँ भेजता है. (उस पर दस रकमतेँ भेजता है.)

રિવાયત હૈ કે સચ્ચિદુલ મુર-સલીન, જનાબે રહ્મતુલ્લિલ  
 આ-લમીન صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ કા ફરમાને દિલ નશીન હૈ :  
 “અલ્લાહ ઈઝ્જલ્ ઈઝ્જલ્ કો તૌબા કરને વાલે નૌ જવાન સે ઝિયાદા પસન્દીદા  
 કોઈ નહીં.” (کنز العمال، کتاب المواضع... الخ، الترغيب الاخواني، الجزء: ۳۳۲/۸، ۱۰: ۴۳۱۰۱، حديث: ۴۳۱۰۱)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### જવાની મેં ઇસ્તિઝ્ફાર કીજિયે

મીઠે મીઠે ઇસ્લામી ભાઈયો ! જવાની મેં ઇબાદત વ  
 તૌબા કી તરફ માઈલ હોને વાલા નૌ જવાન કિસ કદર સઆદત  
 મન્દ હૈ કે અલ્લાહ ઈઝ્જલ્ ઈઝ્જલ્ ઉસે અપના પ્યારા બન્દા બના લેતા  
 હૈ. સચ હૈ કે

دَرْ جَوَانِي تَوْبَهُ كَرْدَنْ شِبْوهٔ يَبْغَمْبَرِي

وَقْتِ پَيْرِي كَزْ كِ ظَالِمِ مِي شَوْدْ پَرَهِيْزْ كَار

યા'ની જવાની મેં ઇસ્તિઝ્ફાર કરના અમ્બિયાએ કિરામ  
 عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام કી સુન્નત હૈ, વરના બુઢાપે મેં તો ઝાલિમ ભેડિયા  
 ભી પરહેઝ ગારી કા લબાદા ઓઢ લેતા હૈ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### એક વસ્વસા ઔર ઉસ કા ઇલાજ

વસ્વસા : મઝકૂરા શે'ર મેં તૌબા વ ઇસ્તિઝ્ફાર કો સુન્નતે  
 અમ્બિયા عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام કહા ગયા હૈ, હાલાં કે તૌબા તો ગુનાહ  
 પર કી જાતી હૈ તો કયા مَعَادَ اللهُ અમ્બિયાએ કિરામ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઇલ્મિયા (દા'વતે ઇસ્લામી)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : જો શપ્સ મુઝ પર દુરૂદે પાક પઢના ભૂલ ગયા વોહ જન્નત કી રાસ્તા ભૂલ ગયા. (ખરૂબી)

સે ભી ગુનાહ સરઝદ હો સકતે હૈં ?

ઇલાજે વસ્વસા : નહીં, હરગિઝ નહીં, હઝરાતે અમ્બિયાએ કિરામ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام હર ખતા વ ગુનાહ સે મા'સૂમ હૈં ઓર મા'સૂમ કે યેહ મા'ના હૈં કે ઇન કે લિયે હિફઝે ઇલાહી કા વા'દા હો ચુકા જિસ કી વજહ સે ઇન સે ગુનાહ હોના શરઅન ના મુઝિન હૈ, નીઝ ઐસે અફ્આલ સે જો વજાહત ઓર મુરવ્વત કે ખિલાફ હૈં કબ્લે નુબુવ્વત ઓર બા'દે નુબુવ્વત બિલ ઇજમાઅ મા'સૂમ હૈં ઓર કબાઈર સે ભી મુત્લકન મા'સૂમ હૈં ઓર હક યેહ હૈ કે તઅમ્મુદે સગાઈર સે ભી કબ્લે નુબુવ્વત ઓર બા'દે નુબુવ્વત મા'સૂમ હૈં.

(મુલખ્ખસ અઝ “બહારે શરીઅત” જિલ્દ અવ્વલ, સફહા 38 તા 39)

વોહ કમાલે હુસ્ને હુઝૂર હૈં કે ગુમાને નક્સ જહાં નહીં  
યેહી ફૂલ ખાર સે દૂર હૈં યેહી શમ્અ હૈં કે ધુવાં નહીં

(હદાઈકે બખ્શિશ)

અમ્બિયાએ કિરામ વ મુર-સલીને ઉઝ્ઝામ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام સે જો તૌબા વ ઇસ્તિઝ્ફાર કે મા'મૂલાત મન્કૂલ હૈં વોહ બતૌરે આજિઝી ઓર તા'લીમે ઉમ્મત કે લિયે હૈં. ઇસી લિયે તૌબા વ ઇસ્તિઝ્ફાર કો મઝકૂરા શે'ર મેં અમ્બિયાએ કિરામ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام કી સુન્નત કહા ગયા હૈ.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَيِّبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

### જવાબોં કો નસીહત

હુજજતુલ ઇસ્લામ હઝરાતે સચ્ચિદુના ઇમામ મુહમ્મદ

બિન મુહમ્મદ ગઝાલી عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي تહરીર ફરમાતે હૈં :

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઇલ્મિયા (દા'વતે ઇસ્લામી)



કરમાને મુસ્તફા صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्इदे पाक न पढा तबकीक वोड भद भप्त छो गया. (उत्तर)

હઝરતે મન્સૂર બિન અમ્માર **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَفَّار** ને એક નૌ જવાન કો નસીહત કરતે હુએ કહા : **أَيُّ جَوَان !** તુજે તેરી જવાની ધોકે મેં ન ડાલે, કિતને હી જવાન એસે થે જિન્હોં ને તૌબા કો મુઅજ્જર ઔર અપની ઉમ્મીદોં કો તવીલ કર દિયા, મૌત કો ભુલા દિયા ઔર કહતે રહે કે કલ તૌબા કર લેંગે, પરસોં તૌબા કર લેંગે યહાં તક કે ઈસી ગફલત મેં મ-લકુલ મૌત આ ગએ ઔર વોહ ગાફિલ અંધેરી કબ્ર મેં જા સોએ. ઉન્હેં ન માલ ને, ન ગુલામોં ને, ન ઔલાદ ઔર ન હી માં બાપ ને કોઈ ફાએદા દિયા.

يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٧﴾

مَنْ أَى اللّٰه يَغْلِبْ سَلِيمٌ ﴿٨٨﴾

(١٩٧, الشعراء, آیت: ٨٨, ٨٩)

તર-જ-મએ કન્જુલ ઈમાન : जिस दिन न माल काम आयेगा न भेटे, मगर वोड जो अल्लाह के हुजूर छाजिर हुवा सलामत दिल् ले कर.

(مُكَاشَفَةُ الْقُلُوبِ، ص ٨٧)

રોતી હે શબનમ કે નેરંગે જહાં કુછ ભી નહીં બન્દા-ઝન હેં બુલબુલેં ગુલ કા નિશાં કુછ ભી નહીં  
ચાર દિન કી ચાંદની હે ફિર અંધેરી રાત હેં યેહ તેરા હુસ્નો શબાબ એ નૌ જવાં ! કુછ ભી નહીં

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ثُوبُوا إِلَى اللهِ ! اسْتَغْفِرُ اللهُ

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! આખિરત કી તય્યારી કરને, ગુનાહોં સે બચને, નેકિયોં પર ઈસ્તિકામત પાને ઔર અપની જવાની કો મ-દની રંગ મેં રંગને કે લિયે દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે હર દમ વાબસ્તા રહિયે, સુન્નતોં કી તરબિચ્યત કે લિયે આશિકાને રસૂલ કે મ-દની કાફિલોં મેં સુન્નતોં

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर एक बार दुर्रदे पाक पढा अल्लाह (ﷻ) उस पर दस रहमते भेजता है. (ﷺ)

ભરા સફર ઇખ્તિયાર કીજિયે ઓર કામ્યાબ ઝિન્દગી ગુઝારને ઓર આખિરત સંવારને કે લિયે મ-દની ઇન્આમાત પર અમલ કર કે રોઝાના ફિકે મદીના કે ઝરીએ મ-દની ઇન્આમાત કા રિસાલા પુર કીજિયે ઓર હર માહ અપને ઝિમ્માદાર કો જમ્મ કરવાઈયે. હફતાવાર સુન્નતોં ભરે ઇજતિમાઆત મેં ખૂબ શિર્કત કીજિયે, તૌબા પર ઇસ્તિકામત પાને ઓર ઇસ કે મુ-તઅલ્લિક તફસીલી મા'લૂમાત જાનને કે લિયે દા'વતે ઇસ્લામી કે ઇશાઅતી ઇદારે મક-ત-બતુલ મદીના કી મત્બૂઆ 132 સફહાત પર મુશ્તમિલ કિતાબ “તૌબા કી રિવાયાત વ હિકાયાત” કા મુતા-લઆ કીજિયે નીઝ ઇલ્મો હિકમત કે મોતી ચુનને કે લિયે મ-દની મુઝા-કરે મેં શિર્કત કીજિયે, બાબુલ મદીના સે બાહર કે ઇસ્લામી ભાઈ ઓર ઇસ્લામી બહનેં મ-દની ચેનલ કે ઝરીએ હાઝિરી દેં.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### મ-દની ચેનલ ક્યા હૈ ?

દા'વતે ઇસ્લામી કે ઇશાઅતી ઇદારે મક-ત-બતુલ મદીના કી મત્બૂઆ કિતાબ “ગીબત કી તબાહ કારિયાં” સફહા 86 પર હૈ : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﷻ ! તબ્લીગે કુરઆનો સુન્નત કી આલમગીર ગૈર સિયાસી તહરીક દા'વતે ઇસ્લામી કે મુ-તઅદદ શો'બે હેં જિન કે ઝરીએ દુન્યા મેં ઇસ્લામ કી બહારેં લુટાઈ જા રહી હેં, ઇન્હીં મેં એક શો'બા “મ-દની ચેનલ” ભી હૈ જિસ કે

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઇલ્મિયા (દા'વતે ઇસ્લામી)

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जो शप्स मुज़ पर दुइडे पाक पढना भूल गया वोड  
 जन्नत का रास्ता भूल गया. (جرانی)

जरीअे हुन्या के कई ममालिक में T.V. के जरीअे घरों के अन्दर  
 दाभिल हो कर दा'वते ईस्लामी ईस्लाम का पैगाम आम कर  
 रही है. म-दनी येनल हुन्या का वाहिद येनल है जो के सो  
 ईसदी ईस्लामी रंग में रंगा हुवा है, ईस में न इल्में डिरा मे  
 हैं, न गाने बाजे और न औरत की नुमाईश है, न ही किसी  
 डिस्म की मूसीकी. مُحَمَّدٌ لِلَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ म-दनी येनल के जरीअे कई  
 कुफ़र दामने ईस्लाम में आ चुके हैं, बे शुमार बे नमाज़ी  
 नमाज़ों के पाबन्द बने हैं और ला ता'दाद अफ़राद गुनाहों  
 से ताईब हो कर सुन्नतों पर अमल करने लगे हैं. म-दनी  
 येनल की अ-र-कतों का अन्दाज़ा लगाने के लिये ईस की अेक  
 म-दनी बहार मुला-हज़ा हो युनान्ये अेक ईस्लामी भाई ने  
 मुजे बर्का डाक (E-MAIL) के जरीअे अेक "म-दनी बहार"  
 पेश की, उस का लुब्बे लुबाब येड है : आज कल येड डाल है के  
 दौराने गुफ़्त-गू अकसर ईस बात का अन्दाज़ा नहीं हो पाता  
 के गीबत का सिखिसिला शुइअ हो चुका है ! अेक बार हैदरआबाद  
 (बाबुल ईस्लाम सिन्ध) से बाबुल मदीना आअे हुअे अेक  
 ईस्लामी भाई ने यन्द ईस्लामी भाईयों की मौजू-दगी में  
 कडा : मेरे अेक दोस्त ने मुजे बताया के मेरी बहन जो के  
 इन्तिहाई गुसीवी तबीअत की है, अगर कभी किसी से नाराज  
 हो जाअे तो पुद से बढ कर मुलाकात में पडल नहीं करती,  
 मेरी भाभी और बहन में यन्द मुआ-मलात की बिना पर  
 आपस में यप-कलश हुई और बहन ने बातचीत बन्द कर

पेशकश : मशविसे अल मदीनतुल ईल्मिया (दा'वते ईस्लामी)

﴿فرمانہ میں مستحکم﴾ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस کے پاس میرا لڑکے کا ڈھیر ہے اور اس نے مجھ پر دُور  
شَرِک نہ پڑا اس نے جُزأ کی۔ (عبدالرزاق)

दी, दुस्ने धत्तिकाक, के उसी रात दा'वते धस्वामी के दर दिल्  
अजीज सो ईसदी धस्वामी म-दनी येनल पर "म-दनी  
मुजा-करा" नशर किया गया जिस में गीबत की तबाह कारियों  
से बयने का जेहन दिया गया था. मेरी बहन ने जब वोह  
म-दनी मुजा-करा सुना तो اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَيَّ मेरी वोही गुसीली बहन  
जे बढ कर किसी से मुलाकात नहीं करती थी अजभुद आगे  
बढी और उस ने मेरी त्वात्मी से न सिर्फ मुलाकात की बल्के  
मुआफी भी मांगी और दोनों में सुलह हो गई.

नाय गानों और किल्मों से येह येनल पाक है म-दनी येनल हक बयां करने में भी बेबाक है  
म-दनी येनल में नबी की सुन्नतों की धूम है और शैताने लई रन्धूर है मगमूम है

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

भीठे भीठे धस्वामी त्वाधयो ! बयान को धप्तिताम की  
तरफ लाते हुअे सुन्नत की इजीलत और यन्ध सुन्नतें और  
आदाब बयान करने की सआदत हासिल करता हूं. ताजदारे  
रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मुस्तफा जाने रहमत, शम्भे  
बजमे ह्दियायत, नोशअे बजमे जन्नत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का  
इरमाने जन्नत निशान है : "जिस ने मेरी सुन्नत से महब्बत की  
उस ने मुज से महब्बत की और जिस ने मुज से महब्बत की वोह  
जन्नत में मेरे साथ होगा."

(مشكاة المصابيح، १/००५ حديث: ११०)

सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका जन्नत में पड़ोसी मुजे तुम अपना बनाना

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल धल्मिया (दा'वते धस्वामी)

કરમાને મુસ્તફા ﷺ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : જો મુઝ પર રોઝે જુમુઆ દુરુદ શરીફ પઢેગા મેં કિયામત કે દિન ઉસ કી શકાઅત કરેગા. (કુરાઆન)

## “મદીને કી હાઝિરી” કે બારહ હુરુફ કી નિરખત સે ઘર મેં આને જાને કે 12 મ-દની ફૂલ

﴿1﴾ જબ ઘર સે બાહર નિકલેં તો યેહ દુઆ પઢિયે :  
 “عَزَّوَجَلَّ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ”  
 કે નામ સે, મેં ને અલ્લાહ ેزَّوَجَلَّ પર ભરોસા કિયા, અલ્લાહ ેزَّوَجَلَّ કે બિગૈર ન તાકત હૈ ન કુવ્વત.” (سنن ابى داؤد، ج ٤ ص ٤٢٠ حديث ٥٠٩٥)

ઇસ દુઆ કો પઢને કી બ-ર-કત સે સીધી રાહ પર રહેંગે, આફતોં સે હિફાઝત હોગી ઓર અલ્લાહ ેزَّوَجَلَّ કી મદદ શામિલે હાલ રહેગી ﴿2﴾ ઘર મેં દાખિલ હોને કી દુઆ :  
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.  
 (أيضاً-حديث ٥٠٩٦) (तरजमा : ओ अल्लाह ેزَّوَجَلَّ ! मीं तुज से दाखिल होने और निकलने की ललाई मांगता हूँ, अल्लाह ેzَّوَجَلَّ के नाम से हम (घर में) दाखिल हुअे और उसी के नाम से बाहर आअे और अपने रब अल्लाह ેzَّوَجَلَّ पर हम ने लरोसा किया) दुआ पढने के बा'द घर वालों को सलाम करे फिर बारगाहे रिसालत में عَلَيْهِ السَّلَام وَالسَّلَام शरीफ पढे. इंस के बा'द सू-रतुल ईप्वास शरीफ पढे. इंस रोजी में ब-र-कत और घरेलू जगडों से बयत होगी ﴿3﴾ अपने घर में आते जाते महारिम व

पेशकश : मजबिसे अल मदीनतुल ईल्मिया (दा'वते ईस्लामी)

ફરમાને મુસ્તફા صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : મુઝ પર દુરુદ પાક કી કસરત કરો બેશક યેહ તુમ્હારે લિયે તહારત હૈ. (બ્રિટી.)

મહરમાત (મ-સલન માં, બાપ, ભાઈ, બહન, બાલ બચ્ચે વગૈરા) કો સલામ કીજિયે ﴿4﴾ **اَلصَّلَاةُ عَزَّوَجَلَّ** કા નામ લિયે બિગૈર મ-સલન **اللہ** بِسْم કહે બિગૈર જો ઘર મેં દાખિલ હોતા હૈ શૈતાન ભી ઉસ કે સાથ દાખિલ હો જાતા હૈ ﴿5﴾ અગર ઐસે મકાન (ખ્વાહ અપને ખાલી ઘર) મેં જાના હો, કે ઉસ મેં કોઈ ન હો તો યેહ કહિયે : **اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ** (યા'ની હમ પર ઔર અલ્લાહ **عَزَّوَجَلَّ** કે નેક બન્દોં પર સલામ) ફિરિશ્તે ઉસ સલામ કા જવાબ દેંગે. (ردالمحتار، ج ۹، ص ۱۸۲) યા ઈસ તરહ કહે : **اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ** અકદસ **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** કી રૂહે મુબારક મુસલ્માનોં કે ઘરોં મેં તશરીફ ફરમા હોતી હૈ. ﴿6﴾ (شرح الشفاء للفقارى، ج ۲، ص ۱۱۸) જબ કિસી કે ઘર મેં દાખિલ હોં તો ઈસ તરહ કહિયે : **اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ** કયા મેં અન્દર આ સકતા હૂં ? ﴿7﴾ અગર દાખિલે કી ઈજાઝત ન મિલે તો બખુશી લૌટ જાઈયે હો સકતા હૈ કિસી મજબૂરી કે તહત સાહિબે ખાના ને ઈજાઝત ન દી હો ﴿8﴾ જબ આપ કે ઘર પર કોઈ દસ્તક દે તો સુન્નત યેહ હૈ કે પૂછિયે : કૌન હૈ ? બાહર વાલે કો યાહિયે કે અપના નામ બતાએ મ-સલન કહે : “મુહમ્મદ ઈલ્યાસ.” નામ બતાને કે બજાએ ઈસ મૌકઅ પર “મદીના !”, “મેં હૂં !”, “દરવાઝા ખોલો” વગૈરા કહના સુન્નત નહીં

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

﴿رَمَانَهُ مُسْتَقِيمًا﴾ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : تُمْ جَلَا لَمْ لَمْ مُؤَلَّ عَلَى دُرَّةِ مَدِينَةٍ كَيْ تُمْ مَدِينَةٍ  
 دُرَّةِ مُؤَلَّ تَكْ مَدِينَةٍ لَمْ. (طَبْرَانِ)

﴿9﴾ જવાબ મેં નામ બતાને કે બા'દ દરવાઝે સે હટ કર ખડે હોં તાકે દરવાઝા ખુલતે હી ઘર કે અન્દર નઝર ન પડે ﴿10﴾ કિસી કે ઘર મેં ઝાંકના મમ્નૂઅ હૈ બા'ઝ લોગોં કે મકાન કે સામને નીચે કી તરફ દૂસરોં કે મકાનાત હોતે હેં ઉન કો સખ્ત એહતિયાત કી હાજત હૈ ﴿11﴾ કિસી કે ઘર જાએ તો વહાં કે ઈન્તિઝામાત પર બે જા તન્કીદ ન કરેં ઈસ સે ઉસ કી દિલ આઝારી હો સકતી હૈ ﴿12﴾ વાપસી પર અહલે ખાના કે હક મેં દુઆ ભી કીજિયે ઓર શુક્રિયા ભી અદા કીજિયે ઓર સલામ ભી કીજિયે ઓર હો સકે તો કોઈ સુન્નતોં ભરા રિસાલા વગૈરા ભી તોહફતન પેશ કીજિયે.

ઢેરોં સુન્નતેં સીખને કે લિયે મક-ત-બતુલ મદીના કી મત્બૂઆ દો કુતુબ બહારે શરીઅત હિસ્સા 16 (312 સફહાત) નીઝ 120 સફહાત કી કિતાબ “સુન્નતેં ઓર આદાબ” હદિથ્યતન હાસિલ કીજિયે ઓર પઢિયે. સુન્નતોં કી તરબિથ્યત કા એક બેહતરીન ઝરીઆ દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની કાફિલોં મેં આશિકાને રસૂલ કે સાથ સુન્નતોં ભરા સફર ભી હૈ.

(101 મ-દની ફૂલ, સ. 23)

સીખને સુન્નતેં કાફિલે મેં ચલો લૂટને રહમતેં કાફિલે મેં ચલો  
 હોંગી હલ મુશ્કિલેં કાફિલે મેં ચલો પાઓગે બ-ર-કતેં કાફિલે મેં ચલો

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरुदे पाक पढा अल्लाह  
 عزوجل उस पर सो रलभते नाजिल फरमाता है. (अ. 1)

ફેહરિસ

ઉન્વાન	સંક્ર.બં.	ઉન્વાન	સંક્ર.બં.
દુરુદ શરીફ કી ફઝીલત	1	ફિરિશતોં સે અફઝલ કૌન ?	17
જવાની કી તલાશ	1	નૌ જવાનાને મિલ્લત ઔર દા'વતે ઈસ્લામી	19
ઈંટ કે જવાબ મેં ફૂલ પેશ કીજિયે !	4	બેહતરીન ઝિન્દગી કા રાઝ	20
નેકી કી દા'વત આમ કીજિયે	5	સત્તર સિદ્દીકીન કા સવાબ પાને વાલા	21
મતાએ વક્ત કી કદ્ર કીજિયે	6	અલ્લાહ ﷻ કા હકીકી બન્દા	21
જવાની કી તા'રીફ	7	બા હયા નૌ જવાન	22
ફેઝાને ફુરઆન ઔર નૌ જવાન	7	જવાની ને'મતે ખુદા વન્દી	23
જવાની કી ઈબાદત બુઢાપે મેં સબબે આફિયત	8	ઈબાદત ગુઝાર જવાન કી ફઝીલત	24
મદ્ર-સતુલ મદીના બાલિગાન	9	બુઢાપે કે ફઝાઈલ	26
મદ્ર-સતુલ મદીના બાલિગાત	9	સાલેહ નૌ જવાન કો મિલને વાલા ઈન્આમ	28
મ-દની માહોલ ને અદના કો આ'લા કર દિયા	10	બા કરામત નૌ જવાન	30
જવાની કો ગનીમત જાનિયે	11	સાલેહ વ ખાઈફ નૌ જવાન	31
જવાની કી કદ્ર કીજિયે	12	સાયએ અર્શ પાને વાલે ખુશ નસીબ	33
બ વક્તે રિહલત હઝરત અમીરે		ઈમામ ગઝાલી કી નસીહત	34
મુઆવિયા કા ફરમાન	13	જવાની મેં તૌબા કી ફઝીલત	36
બુઝુર્ગોં કી આજિઝી હમારે લિયે રહનુમાઈ	13	જવાની મેં તૌબા કરને વાલા મહબૂબ ક્યૂં ?	36
ઈબાદત કી બ-ર-કત સે બુઢાપે મેં ભી		જવાની મેં ઈસ્તિગ્ફાર કીજિયે	37
જવાન	14	એક વસ્વસા ઔર ઉસ કા ઈલાજ	37
જવાની કી મેહનત બુઢાપે મેં સહૂલત	15	જવાનોં કો નસીહત	38
સાલેહ જવાન કે લિયે બુઢાપે મેં ઈન્આમ	16	મ-દની ચેનલ ક્યા હૈ ?	40
અલ્લાહ કા મહબૂબ બન્દા	17	ઘર મેં આને જાને કે 12 મ-દની ફૂલ	43
		મઆખિઝો મરાજેઅ	47





## सुन्नत की बहारें

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ  
 ईस्लामी के महके महके म-दनी माहोल में ७ कसरत सुन्नतों सीपी और सिपाई जाती हैं, हर जुमा'रात ईशा की नमाज के आ'द आप के शहर में होने वाले दा'वते ईस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर ईजतिमाअ में रिज्जअे ईलाही के विये अथकी अथकी निप्यतों के साथ सारी रात गुजारने की म-दनी ईल्लिज है. आशिकाने रसूल के म-दनी काकिलों में ७ निप्यते सवा७ सुन्नतों की तरबिप्यत के विये सफर और रोजना किंके मदीना के जरीअे म-दनी ईआमात का रिसावा पुर कर के हर म-दनी माह के ईब्लिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'भूल बना लीजिये, رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ईस की ७-२-कत से पा७न्दे सुन्नत बनने, जुनाहों से नफरत करने और ईमान की छिफाजत के विये कुढने का जेहन बनेगा.

हर ईस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाअे के "मुजे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की ईस्वाह की कोशिश करनी है. رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ" अपनी ईस्वाह की कोशिश के विये "म-दनी ईआमात" पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की ईस्वाह की कोशिश के विये "म-दनी काकिलों" में सफर करना है. رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

सूरत : वलिया भाई मस्जिद, ज्वाज घना दरगाह के पास मो. 8488866394

भोइसा : ईजाने मदीना, भागे छिद्यत सोसायटी, कोलेज रोड मो. 9725824820

भरुच : ईजाने मदीना, मेमल कोवोनी, बुन्याद नगर, दुंगरी शेरपुर रोड मो. 9327522145

भांशवी : ईजाने मदीना, तयभा मस्जिद के पास अन्दर रोड मो. 7383774763

जामनगर : पांच छाटी मो. 9327977293



मड-त-अतुल मदीना

दा'वते ईस्लामी

ईजाने मदीना, श्री डोलिया जगीचे डे पास, मिरजापूर, अहमदाबाद-1. गुजरात, इन्डिया

Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net